



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 1985 (चैत्र 2, 1907)  
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1985 (CHAITRA 2, 1907)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 4 [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1985

सं० 539, दिनांक 2 मार्च, 1985—राष्ट्रपति, वाइस एडमिरल  
आई० जे० एस० खुराना (00072-एन०) को महानिदेशक तटरक्षक  
के पद पर दिनांक 15 फरवरी 1985 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक  
नियुक्त करते हैं।

टी० के० वैनर्जी  
संयुक्त सचिव

सं० 540, दिनांक 26 फरवरी, 1985—महानिदेशालय निरीक्षण  
से स्थापनाकरण होने पर, राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट कर्नल जे० के० नागपाल  
(आई० सी०-10105) इंजीनियर्स, को 20 फरवरी, 1985 (पूर्वाह्न)  
से रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन और पूति विभाग में सम्पर्क अधिकारी  
के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं० 541, दिनांक 4 फरवरी, 1985—गृह मंत्रालय, कामिक और  
प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में  
प्रथम प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर, रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय  
सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों (परिवीक्षाधीन) ने  
1 फरवरी, 1985 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों  
का कार्य संभाल लिया है।

1. डा० ए० आर० गोयल
2. श्री बी० के० समनोखा
3. कुमारी बिन्धा
4. श्री के० एल० शर्मा

सं० 542, दिनांक 5 फरवरी, 85—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय संवर्ग  
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित स्थाई सहायकों को उनके  
प्रत्येक के नाम के आगे दी गई अवधि के लिये अवधि नियमित अधिकारी  
के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये तदर्थ आधार  
पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम	से	तक
1.	श्री एन० एन० शर्मा	1-2-85	31-3-85 (28-3-85 को एक दिन के व्यवधान सहित)
2.	श्रीमती शकुन्तला जैन	1-2-85	31-3-85
3.	श्री एम० एल० बोहरा	1-2-85	31-3-85
4.	श्री आर० एन० राम	1-2-85	31-3-85 (30-3-85 को एक दिन का व्यवधान सहित)
5.	श्रीमती एम० बेंकटारामन	1-2-85	31-3-85 (13-2-85 का एक दिन का व्यवधान सहित)
6.	श्री एम० बी० मंगतानी	1-2-85	28-2-85

सं० 543, दिनांक 22 फरवरी, 85—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालयमें  
केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थाई अनुभाग अधिकारी और स्थान-  
पत्र डेस्क अधिकारी, श्री एम० सी० सेठ, को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)  
नियम 1972 के नियम 48-क के अन्तर्गत 28 फरवरी, 1985 (अप  
राह्न) से सरकारी सेवा से स्वच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति  
प्रदान करते हैं।

एल० एन० मेहता  
प्रवर सचिव

रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
सं० 544, दिनांक 22 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

**रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन**

श्री एस० एस० मूर्ति वैज्ञानिक 'ई०', रक्षा वैज्ञानिक सूचना तथा प्रलेख केन्द्र, दिल्ली को इसी केन्द्र में तारीख 8-2-85 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न वैज्ञानिक 'एफ०' के पद पर।

डा० एन० के० जायसवाल, वैज्ञानिक 'ई०', प्रणाली अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान, दिल्ली को इसी संस्थान में तारीख 8-2-85 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न वैज्ञानिक 'एफ०' के पद पर।

श्री एन० बन्धोपाध्याय, वैज्ञानिक 'ई०', योजना तथा साधन प्रबंध निदेशालय, अनुसंधान तथा विकास संगठन, नई दिल्ली, को इसी निदेशालय में तारीख 8-2-85 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न वैज्ञानिक 'एफ०' के पद पर।

के० पापा, सहायक निदेशक (क्रामिक)

**राष्ट्रीय कैंबेट कोर**

सं० 545, दिनांक 25 फरवरी, 1985—निम्नलिखित को राष्ट्रीय कैंबेट कोर में कर्नल का अर्थात्कृतिक रैंक प्रदान किया जाता है तथा उनके भारतीय तकनीक संस्थान, खड़गपुर के कुलपति के पद पर रहने की अवधि तक उन्हें अर्थात्कृतिक कर्नल कमांडेंट एन० सी० सी० नियुक्त किया जाता है।

प्रो० जितेश्वर सरन सत्याल, निदेशक, भारतीय तकनीक संस्थान, खड़गपुर—18 अगस्त 1984।

रवि वींगर, उप सचिव प्रशिक्षण एवं समारोह

**महानिदेशालय राष्ट्रीय कैंबेट कोर**

सं० 546, दिनांक 22 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, निम्नलिखित स्थाई स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी०" को 13 फरवरी, 1985 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न स्टेनोग्राफर ग्रेड "बी०" (एस० पी० ए०) के रूप में ए० एफ० एच० क्यू० स्टेनोग्राफर सेवा में प्रागामी प्रावेश होने तक नियुक्त करते हैं:—

श्री मदन मोहन भट्टा  
श्री सिकंदर सिंह

सं० 547, दिनांक 22 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, स्थाई स्टेनोग्राफर ग्रेड-सी० श्री पी० एन० सिकका, को 21 फरवरी, 1985 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न स्टेनोग्राफर ग्रेड 'बी०' (एस० पी० ए०) के रूप में ए० एफ० एच० क्यू० स्टेनोग्राफर सेवा में प्रागामी प्रावेश होने तक नियुक्त करते हैं।

**निरीक्षण महानिदेशालय**

सं० 548, दिनांक 23 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, स्थायी प्राशु-लिपिक ग्रेड 'सी०' श्री पी० प्रार० सुब्रामणियन को 13 फरवरी 85 (पूर्वाह्न) से अगले प्रावेश जारी होने तक, सशस्त्र सेना मुख्यालय प्राशु-लिपिक सेवा में स्थानापन्न प्राशुलिपिक ग्रेड 'बी०' (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पल सेना मुख्यालय  
(जी० एस० शाखा)

सं० 549, दिनांक 25 फरवरी, 85—राष्ट्रपति, वायुसेना मुख्यालय के स्थाई प्राशुलिपिक ग्रेड 'सी०' (वैयक्तिक सहायक) श्री पूरजमान राजपाल को, 19 फरवरी, 85 (पूर्वाह्न) से अगले प्रावेश जारी होने

तक सशस्त्र सेना मुख्यालय प्राशुलिपिक सेवा में स्थानापन्न प्राशुलिपिक ग्रेड 'बी०' (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 550, दिनांक 25 फरवरी, 1985—सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी, श्री गीरी शंकर का 13-2-85 को वेहाबसान होने पर उसी तारीख से जी० एस० शाखा की नकरी से हटा दिया जाता है।

(एम० एस० शाखा)

सं० 551, दिनांक 25 फरवरी, 85—राष्ट्रपति, एम० एस० शाखा के सहायक श्री एम० एम० एल० बर्मा को सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी श्री विहारी लाल के छुट्टी पर जाने पर उनके स्थान पर 18-5-84 से 23-7-84 तक की अवधि के लिये स्थानीय प्राधार पर स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० 552, दिनांक 25 फरवरी, 85—राष्ट्रपति, एम० एस० शाखा के निम्नलिखित ग्रेड 'सी०' प्राशुलिपिकों को 13-2-85 से अगले प्रावेश जारी होने तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन्न प्राशु-लिपिक ग्रेड "बी०" (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों) के रूप में नियुक्त करते हैं:—

(1) श्री एस० बी० इंदुपानि

(2) श्री बी० के० गांधी

उन्हें एम० एस० शाखा में मौजूदा रिक्तियों पर तैनात किया जाता है।

(क्यू० एस० जी० शाखा)

सं० 553, दिनांक 25 फरवरी, 1985—सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (परखाधीन) श्री चमन लाल ने 15 फरवरी, 1985 (अपरराह्न) से सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा से त्याग-पत्र दे दिया।

एस० एन० सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

**सेना शाखा**

सं० 554, दिनांक 25 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित जे० सी० प्रो० को दिनांक 20 जुलाई 1984 से सेना अनुदेश 85/74 के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट की श्रेणी में क्वार्टर मास्टर की विशेष सूची में स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है। सेना अनुदेश 85/74 पैरा 7(सी०) के अन्तर्गत उनकी वरिष्ठता केवल वेतन के लिए 20 जुलाई 1982 से होगी:—

सुबेदार रूप सिंह (जे० सी०-79005-एक्स० अथ एम० एल०-3084-के०), जे० ए० के० राईफल्स।

सुबेदार संग्राम सिंह (जे० सी०-83536-एम० अथ एम० एल०-3085-एम०), जे० ए० के० राईफल्स।

सुबेदार चन्द्र बल्लभ पाण्डे (जे० सी०-93501-के० अथ एम० एल०-3087-एक्स०), सिगनल्स।

सुबेदार अशिश्वर सिंह (जे० सी०-85979-एम० अथ एम० एल०-3086-पी०), पंजाब।

सुबेदार नरेश कुमार सिंह (जे० सी०-97931-एम० अथ जे० एम० एल०-3088-ए०), सिगनल्स।

सुबेदार रोशन लाल (जे० सी०-102416-एम० अथ एम० एल०-3089-एच०), सिगनल्स।

सूबेदार खेम सिंह मंडोतरा (जे० सी०-112895-एल० अथ एल० एल०-3092-एल०), बोगरा।

सूबेदार गुरभजन सिंह (जे० सी०-107372-एल० अथ एल० एल०-3090-एल०), सिद्ध रेजीमेंट।

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे० सी०-111560-एल० अथ एल० एल०-3091-ए०), आर्टी०।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह चौधरी (एल०-4048601-एल० अथ एल० एल०-3093-एल०), गढ़वाल राईफल्स।

नायब सूबेदार माधवसेती सत्यनारायण राजू (एल०-1244162-एल० अथ एल० एल०-3100-इन्फ्यू०), आर्टी०।

नायब सूबेदार राज बोर सिंह राणा (एल०-2862371-आई० अथ एल० एल०-3098-के०), राज० राईफल्स।

निम्नलिखित एन० सी० ओ० को दिनांक 20 जुलाई 1984 से सेना अनुदेश 85/74 के अन्तर्गत 2/लिफ्टनेन्ट की श्रेणी में क्वार्टर मास्टर्स की विशेष सूची में स्थायी आयोग अनुदान किया जाता है:—

सी० क्यू० एम० एच० एन० सी० जोसफ (नं० 2557837-एन० अथ एल० एल०-3097-एल०), ए० ई० सी०।

ज्येष्ठता सेलिफ्टनेन्ट राजबीर सिंह राना (एल० एल०-3098-के०) के भीचे।

सी० क्यू० एम० एच० हरचरण सिंह खोकर (नं० 6290876-एम० अथ एल० एल०-3096-आई०), सिगनल्स।

आर० क्यू० एम० एच० जगन्नाथ शर्मा (नं० 6303397-एम० अथ एल० एल०-3095-इन्फ्यू०), सिगनल्स।

हवलदार बलबीर सिंह (नं० 6888037-एन० अथ एल० एल०-3101-आई०), ए० ओ० सी०।

हवलदार रतन मणी प्रधान (नं० 4346263-पी० अथ एल० एल०-3107-ए०), असाम रेजीमेंट।

हवलदार सत पाल (नं० 13731640-एल० अथ एल० एल०-3103-के०), मेके इन्फैंट्री।

हवलदार बलबीर सिंह (नं० 6326040-एल० अथ एल० एल०-3102-एल०), सिगनल्स।

हवलदार पुरशोधमन एम० (नं० 7103348-इन्फ्यू० अथ एल० एल०-3104-एम०), ई० एम० ई०।

हवलदार जंगबीर सिंह रावत (नं० 7107891-एल० अथ एल० एल०-3105-पी०), ई० एम० ई०।

हवलदार भानुदा मोहन मजूमदार (नं० 6317306-एल० अथ एल० एल०-3108-एम०), सिगनल्स।

दफादार बन्धन सिंह (नं० 1043145-सी० अथ एल० एल०-3106-एल०), आर्मेड कोर।

सी० क्यू० एम० एच० प्रताप सिंह शेखावत (नं० 2864476-एल० अथ एल० एल०-3099-एम०), त्रिनेत्रियर्स।

हवलदार दामोदर दास चौहान (नं० 1241133-एल० अथ एल० एल०-3111-एल०), आर्टी०।

हवलदार हनुवर पाल सिंह गिल (नं० 6321785-एन० अथ एल० एल०-3109-एल०), सिगनल्स।

नायक पुनिया राजेन्द्रन (नं० 14217910-इन्फ्यू० अथ एल० एल०-3112-एल०), सिगनल्स।

नायक होशियार सिंह (नं० 1299386-एल० अथ एल० एल०-3110-ए०), आर्टी०।

नायब सुबर्शन सिंह परमार (नं० 14204249-के० अथ एल० एल०-3113-एन०), सिगनल्स।

सीन नायक गोपाल कृष्णन मलयानी पांडिधर (नं० 1276600-इन्फ्यू० अथ एल० एल०-3114-इन्फ्यू०), आर्टी०।

निम्नलिखित जे० सी० ओ० को दिनांक 04 अगस्त, 1984 से सेना अनुदेश 85/74 के अन्तर्गत सेलिफ्टनेन्ट की श्रेणी में क्वार्टर मास्टर्स की विशेष सूची में स्थायी आयोग अनुदान दिया जाता है। सेना अनुदेश 85/74 पैरा 7 (सी०) के अन्तर्गत उसकी वरिष्ठता केवल वेतन के लिए 04 अगस्त 1982 से होगी:—

नायब सूबेदार ईश्वर चन्द (एल०-6296194-एल० अथ एल० एल०-3094-एन०), सिगनल्स, ज्येष्ठता

2/लिफ्टनेन्ट गोपाल कृष्णन मलयानी पांडिधर (एल० एल०-3114-इन्फ्यू०), आर्टी० के भीचे।

सुभाष चन्द्र मलिक  
से० कर्नल  
ए० एम० एल०-8

सं० 555, दिनांक 19 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग

कर्नल से ब्रिगेडियर के रैंक में

एच० सी० जोशी (एम० आर०-637) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 1-2-84

(ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 19-3-82 से)

स्थाई आयोग

से० कर्नल से कर्नल के रैंक में

ए० घोष (एम० आर०-2136) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 1-4-1983।

बी० सीतारमन (एम० आर०-992) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 1-6-83।

एल० वास (एम० आर०-1116) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 10-7-83।

एच० एल० गुलाटी (एम० आर०-1476) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 15-7-83।

पी० डा० (एम० आर०-1741) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 20-7-83।

नारायण जी० (एम० आर०-941) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 23-10-83।

बी० एम० घोष (एम० आर०-1715) सैनिक डाक्टरी कोर/पी० सी० से 11-4-84।

असोक जैन, उप सचिव

सं० 556, दिनांक  
पदोन्नतियां करते हैं:—

—राष्ट्रपति निम्नलिखित

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से सेलिफ्टनेन्ट कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

एल० टी० रंज गाडं (आई० सी०-12773-एम०), इंजीनियर्स—

11 जून 1984।

श्री० एन० करीर (आई० सी०-11124-पी०), इंजीनियर्स—  
17 दिसम्बर 1983।

वी० बाजपेयी (आई० सी०-11597-एन०), इन्टीसीजेस कोर—  
7 जून 1984।

के० एम० कंबल (आई० सी०-11228-डब्ल्यू०), इन्फैन्ट्री—  
2 अगस्त 1984।

ले० कर्मल, आर० एस० जटगना, सहायक सैनिक भविष्य

सं० 557, दिनांक 28 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित  
अफसरों की पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

स्थायी कर्मियों

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

सन्दीप कुमार (आई० सी०-35468) इन्फैन्ट्री, पी० एम० राय  
(आई० सी०-35469) इन्फैन्ट्री, ए० कुरू (आई० सी०-35470)  
आरमंड कोर, बी० रावत (आई० सी०-35471) इन्फैन्ट्री, एम० एन०  
बुगानी (आई० सी०-35472) इन्फैन्ट्री, एम० के० नायक (आई०  
सी०-35473) आरमंड कोर, एम० एम० शुक्ला (आई० सी०-35474)  
इन्फैन्ट्री, यू० सी० शारदा (आई० सी०-35475) इन्फैन्ट्री, अवनार सिंह  
(आई० सी०-35476) इन्फैन्ट्री, जे० एम० वर्मा (आई० सी०-35477)  
इन्फैन्ट्री, डी० एस० लेहन (आई० सी०-35478) आरमंड कोर, बी०  
एस० नेगी (आई० सी०-35479) इन्फैन्ट्री, सुन्दर सिंह (आई० सी०-  
35480) इन्फैन्ट्री, आर० नारायणन् (आई० सी०-35481) आरमंड  
कोर, एम० कौणिक (आई० सी०-35482), इंजीनियर्स, सतजीव कुमार  
(आई० सी०-35483) इन्फैन्ट्री, एन० बी० मोहनदासन (आई० सी०-  
35484) इन्फैन्ट्री, आर० तलवार (आई० सी०-35485) आरमंड कोर  
एम० सी० रगी (आई० सी०-35486) इन्फैन्ट्री, एन० पी० एम०  
हीरा (आई० सी०-35487) इन्फैन्ट्री, आर० गोपालकृष्णन् (आई०  
सी०-35488) आर्टिलरी, पी० एम० बादल (आई० सी०-35489)  
इन्फैन्ट्री, एन० पी० मुरलीधरन् (आई० सी०-35490) सिगनल्स, पी०  
एम० मेहन (आई० सी०-35491) ए० एस० सी०, ए० आर० पाटील  
(आई० सी०-35492) इन्फैन्ट्री, के० यमर (आई० सी०-35493)  
सिगनल्स, एम० साहा (आई० सी०-35494), इन्फैन्ट्री एन० मेहरा  
(आई० सी०-35495) इन्फैन्ट्री, एम० एन० यादव (आई० सी०-  
35496) आर्टिलरी, जे० एम० सूर्य (आई० सी०-35497) आर्टिलरी  
—31 जुलाई 1984।

उज्जागर सिंह (आई० सी०-35528) आर्टिलरी, टी० समस्त, (आई०  
(आई० सी०-35529) आर्टिलरी, पी०के० टमंग (आई० सी०-35531)  
इन्फैन्ट्री, जी०एस० रीन (आई० सी०-35532) आर्टिलरी, पी० बन्शी-  
(आई० सी०-35533) इन्फैन्ट्री, सी० विजय (आई० सी०-35534)  
आर्टिलरी, जे०एल० ढांड्यार (आई० सी०-35535) इन्फैन्ट्री, ए०के०एन०  
श्रीधरन् (आई० सी०-35536) इन्फैन्ट्री, जी० वरधारागुल्लु (आई० सी०-  
35537) आर्टिलरी, एन० बासी (आई० सी०-35538) इन्फैन्ट्री, श्री०  
पी० यादव (आई० सी०-35539) ए०ओ०सी०, आई०एस० वेन्स (आई०  
सी०-35540) इन्फैन्ट्री, बी०के० पाठक (आई० सी०-35541), आर्टी-  
लरी, बी०बी० गुरंग (आई० सी०-35542) इन्फैन्ट्री, सी०एस० ब्रह्म  
(आई० सी०-35544) इन्फैन्ट्री, आर० थापिया (आई० सी०-35545)  
आर्टिलरी, आर०पी० नैकावड (आई० सी०-35546) इन्फैन्ट्री, जे०एम०  
द्विवेदी (आई० सी०-35547), ए०एस०सी०, एस०के० सामन्ते  
(आई० सी०-35548) आर्टिलरी, जेयपाल सिंह (आई० सी०-35549)  
आर्टिलरी, एम० शुक्ला (आई० सी०-35550) आरमंड कोर, ए०के०  
यादव (आई० सी०-35552) आर्टिलरी, एस० शर्मा (आई० सी०-  
35553) इन्फैन्ट्री, रविन्द्र सिंह (आई० सी०-35554) आर्टिलरी, एम०

कालिया (आई० सी०-35555) इन्फैन्ट्री, आई०एस० सायु (आई० सी०-  
35556), ए०ओ०सी० आर० जेटले (आई० सी०-35557) इन्फैन्ट्री, एन०  
भानोट (आई० सी०-35559) ई०एम०ई०, जे० धीमाल (आई० सी०-  
35560) इन्फैन्ट्री, एम० शर्मा (आई० सी०-35561) सिगनल्स,—31  
जुलाई 1984।

विजय कुमार (आई० सी०-35562) आर्टिलरी, बी०के० जैन  
(आई० सी०-35563) इन्फैन्ट्री, बसवान सिंह (आई० सी०-35564),  
इन्फैन्ट्री, के०एस०एन० शुकुमारन् (आई० सी०-35565) आर्टिलरी, एम०  
जे० माथ्यु (आई० सी०-35566) आर्टिलरी, ए० डब्ल्यू खान (आई० सी०-  
35567) इन्फैन्ट्री, के०आर० सिंह (आई० सी०-35568) ए०ओ०सी०,  
अजीत सिंह (आई० सी०-35569) आरमंड कोर, बी० स्वामीनाथ (आई०  
सी०-35571) ई०एम०ई०, आर०एय० निबन (आई० सी०-35572)  
इन्फैन्ट्री, जे०एम० गिल (आई० सी०-35573) आर्टिलरी, पी०बी०  
कचोट (आई० सी०-35574) आर्टिलरी, एस०के० यादव (आई० सी०-  
35575), आरमंड कोर, ए०एम० केयलत गोट (आई० सी०-35576)  
इन्फैन्ट्री, एम० केयलत (आई० सी०-35577) आर्टिलरी, जी० बिन्नु  
(आई० सी०-35578) इन्फैन्ट्री, सतीश चन्द्र (आई० सी०-35579)  
इन्फैन्ट्री, के०के०बी० शान भाग (आई० सी०-35580) इन्फैन्ट्री, सी०  
प्रकाश (आई० सी०-35581) आर्टिलरी, पी०एस० सन्धु (आई० सी०-  
35582) इन्फैन्ट्री बलजीत सिंह (आई० सी०-35583) ए०ओ०सी०,  
जी०के० गुजाला (आई० सी०-35584) इन्फैन्ट्री, जगदीश सिंह (आई०  
सी०-35585) इन्फैन्ट्री, भुपेन्द्र सिंह (आई० सी०-35586) इन्फैन्ट्री,  
मंगल सिंह (आई० सी०-35587) इन्फैन्ट्री, आर०सी० शकलानी, (आई०  
सी०-35588) इन्फैन्ट्री, डी०एम० नानुभन (आई० सी०-35589)  
आर्टिलरी आर० चट्टीजी (आई० सी०-35590) आर्टिलरी, एम०पी०  
सिंह, (आई० सी०-35591) ए०एस०सी०, गुरविन्द्र सिंह (आई० सी०-  
35592) आर्टिलरी—31 जुलाई 1984।

जे० माथ्यु (आई० सी०-35593) इन्फैन्ट्री, डी०के० दाम (आई०  
सी०-35594) आर्टिलरी, एम०एम० हीरा (आई० सी०-35595)  
आर्टिलरी, श्री०के० तन्दा (आई० सी०-35596) आर्टिलरी, कुलदेव सिंह  
(आई० सी०-35599) सिगनल्स, डी०एम० बांस (आई० सी०-35600)  
इन्फैन्ट्री, एस०एस० डिप्रोण (आई० सी०-35601) इन्फैन्ट्री, ए०बी०  
सीवाने (आई० सी०-35602) आरमंड कोर, के०आर० राव, (आई०  
सी०-35603) ए०ओ०सी०, विजय सिंह (आई० सी०-35604) इन्फैन्ट्री  
पी०सी० मलाकर (आई० सी०-35605) इन्फैन्ट्री, जी०के० पान्डे (आई०  
सी०-35606) आर्टिलरी, एच०एस० भट्टी (आई० सी०-35607)  
आरमंड कोर, टी०के० मिरकर (आई० सी०-35608) इन्फैन्ट्री, एम०  
एन० बिष्ट (आई० सी०-35609) ए०ओ०सी०, बसवीर सिंह (आई०  
सी०-35610) ए०एस०सी०, मनजीत सिंह (आई० सी०-35611)  
आर्टिलरी, जे०एस० बड़या (आई० सी०-35612) इन्फैन्ट्री, एम०के०  
यादव (आई० सी०-35613), ई०एम०ई०, सी०पी० रामकन्दानी (आई०  
सी०-35614) इंजिनियर्स, पी०एस० रणहोत्रा (आई० सी०-35615)  
इन्फैन्ट्री, एम०जी० धेखावन (आई० सी०-35616) आर्टिलरी, राजेन्द्र  
सिंह (आई० सी०-35617) ए०ओ०सी०, जान चन्द्र (आई० सी०-  
35618) ए०ओ०सी०, एस०एम० पटानिया (आई० सी०-35619)  
इन्फैन्ट्री, बी०एस० प्रसाद (आई० सी०-35621) आर्टिलरी, ए०टी० धर  
(आई० सी०-35622) ए०एम०सी०, आर०के० कपूर (आई० सी०-  
35623) सिगनल्स, एस०के० बहल (आई० सी०-35624) आर्टिलरी,  
ए०के० सिंगल (आई० सी०-35625) आर्टिलरी—31 जुलाई 1984।

एच० कृष्णा (आई० सी०-35696) इन्फैन्ट्री, प्रितिन सिंह (आई०  
सी०-35697) इन्फैन्ट्री, एम० राय (आई० सी०-35699) इन्फैन्ट्री,  
डी० मलहोत्रा (आई० सी०-35700) आर्टिलरी, डी०बी० देसवाल (आई०  
सी०-35701) ए०एस०सी०, कृष्णा मेहन, एम० (आई० सी०-35702)  
आर्टिलरी, ए०पी० राव (आई० सी०-35703) इन्फैन्ट्री, सी०के० एम०  
मान (आई० सी०-35704) इन्फैन्ट्री, विरेन्द्र कुमार (आई० सी०-  
35705) ए०ओ०सी०, जी०ए० रोनेड (आई० सी०-35707) सिगनल्स

एन०एस० योगेश (आई०सी०-35708) इन्फैन्ट्री, सुरेन्द्र कुमार (आई०सी०-35709) इन्फैन्ट्री, आर०एस० साधु (आई०सी०-35710) आरमंड कोर, एन० युल्कर (आई०सी०-35711) आरमंड कोर, ज) प्रोल्ड (आई०सी०-35712) इन्फैन्ट्री, गुर्दीप सिंह (आई०सी०-35714) इन्फैन्ट्री, बी०पी० के० पिल्लै (आई०सी०-35715) इन्फैन्ट्री, पी० यादव (आई०सी०-35716) इन्फैन्ट्री, जी० श्रीनिवासन (आई०सी०-35717) आर्टिलरी, अनीस नुमार, (आई०सी०-35718) ए०ओ०सी०, नरेन्द्र सिंह (आई०सी०-35719) ए०एस०सी०, एन०के० माथूर (आई०सी०-35720) आर्टिलरी, बी०के० राधवन (आई०सी०-35721) इन्फैन्ट्री, टी०आर० शर्मा (आई०सी०-35722) ई०एम०ई०ए० शट्टीपाध्याय (आई०सी०-35723) आर्टिलरी, के०पी० रविन्दन (आई०सी०-35725) ए०ओ०सी०, एम० मिमटा (आई०सी०-35726) आर्टिलरी, सुधीर सिंह (आई०सी०-35727) इन्फैन्ट्री, बी० रवी (आई०सी०-35728) आर्टिलरी, एस०के० बामू (आई०सी०-35729) आर्टिलरी—31 जुलाई, 1984।

पी० के० सरकार (आई०सी०-35765) इन्फैन्ट्री, पी० बी० मूर्ती (आई०सी०-35767) ए०ओ०सी०, ए०के० शर्मा (आई०सी०-35768), आर्टिलरी बी०सी० गोंयस (आई०सी०-35769) ए०एस०सी०, एम० गुप्ता (आई०सी०-35770) ए०ओ०सी०, ए० कीलिकटन (आई०सी०-35772) इन्फैन्ट्री, पी०बी०एन० किशोर (आई०सी०-35774) सिगनल्स, एस०के० सुरेश (आई०सी०-35775) आर्टिलरी, एच०के० बेठ्या (आई०सी०-35776) इन्फैन्ट्री, ए० मुखर्जी (आई०सी०-35777) आर्टिलरी, टी० अमरनाथ (आई०सी०-35779) आर्टिलरी, विजय कुमार (आई०सी०-35780) इन्फैन्ट्री, ए० नसेरा (आई०सी०-35781) इन्फैन्ट्री, जे० मैना (आई०सी०-35782) इन्फैन्ट्री, जी०एस० बेदवान (आई०सी०-35784) इन्फैन्ट्री, जे०एस० राना (आई०सी०-35786) ए०ओ०सी०, के०आर० सिंह (आई०सी०-35788) आर्टिलरी, रणाजीत सिंह (आई०सी०-35789) ए०ई०सी०, डी० चौधरी (आई०सी०-35790) ए०ई०सी० आर०एस० खत्री (आई०सी०-35801) ए०ई०सी०, चन्द राम (आई०सी०-35802), ए०ई०सी०, पी० शदाकुमथानी (आई०सी०-35810) ए०ई०सी०, जे०एम० शर्मा (आई०सी०-35812) ए०ई०सी०, पी० चक्रवर्ती (आई०सी०-35833) ए०ई०सी०, एन०एन० चिन्नन (आई०सी०-35874) ए०ई०सी०—31 जुलाई, 1984।

ए०के०एस० सेनकर (आई०सी० 35901) इन्फैन्ट्री, रम सिंह (आई०सी० 35902) आरमंड कोर, जी एम० भुलकर (आई०सी० 35903) आरमंड कोर, एस० चान्द (आई०सी० 35904) इन्फैन्ट्री, के० बन्धीपाध्याय (आई०सी० 35905), रजिनियर्स, बी० एम० शर्मा (आई०सी० 35206) इन्फैन्ट्री, ए० के० प्रसाद (आई०सी०-35907) इन्फैन्ट्री ए० भानु (आई०सी० 35908), रजिनियर्स, ए० एम० पावार (आई०सी० 35909) इन्फैन्ट्री आर० के० धापा (आई०सी०-35910) इन्फैन्ट्री रामजीत सिंह (आई०सी०-35911) इन्फैन्ट्री एम० पी० पार्टील (आई०सी० 35912) इन्फैन्ट्री एम० एम० नरक (आई०सी०-35913) रजिनियर्स ए० के० शर्मा (आई०सी० 35914) रजिनियर्स, आर० तिवारी (आई०सी० 35915) आरमंड कोर, एच० नागर (आई०सी० 35916) आर्टिलरी, ए०के० सिंह, (आई०सी० 35917) आर्टिलरी, अमरजीत सिंह (आई०सी० 35919) इन्फैन्ट्री, पी०के० डामरा (आई०सी० 35921), आर्टिलरी, बी० बक्षी (आई०सी० 35922) इन्फैन्ट्री, जे० एस० चिमा (आई०सी० 35923) इन्फैन्ट्री, आर० दूधा (आई०सी० 35924) ई०एम०ई०, एस० अशवाल (आई०सी० 35925) इन्फैन्ट्री, बी०के० मदान (आई०सी० 35926) आर्टिलरी, सी० एन० रेडी (आई०सी० 35927) इन्फैन्ट्री, जी०के० श्रीवास्तवा (आई०सी० 35928) आर्टिलरी, वी०के० शर्मा (आई०सी० 35929) आर्टिलरी, ए०के० शरंग (आई०सी० 35930) आर्टिलरी, ए०के० शर्मा (आई०सी० 35931) इन्फैन्ट्री, आर० सुरेश (आई०सी० 35932) आर्टिलरी—31 जुलाई, 1984।

बी० सी० कटोच (आई०सी० 37175) आरमंड कोर, आर० सी० सिंह (आई०सी० 37177) इन्फैन्ट्री, आर० एस० सिंह (आई०सी०

37178) इन्फैन्ट्री, वी०के० छिन्नर (आई०सी० 37179) इन्फैन्ट्री, वी०के० एस० मलिक (आई०सी० 37180) इन्फैन्ट्री, एस० बनर्जी (आई०सी० 37181) आरमंड कोर, एम० वावावेरी, (आई०सी० 37182) ए० ओ० सी० सुरेश कुमार (आई०सी० 37184) इन्फैन्ट्री, जे०पी० सिंह (आई०सी० 37185) आर्टिलरी, आर० रामचन्द्रन (आई०सी० 37186) आरमंड कोर, के० पी० एम० राणा (आई०सी० 37187) इन्फैन्ट्री, सूर्य कुमार (आई०सी० 37188) आर्टिलरी, बी० एम० साम्बयल (आई०सी० 37189) इन्फैन्ट्री, आर० एम० शर्मा (आई०सी० 37190), ए०एस० सी० पी०के० बंदरा (आई०सी० 37191) आर्टिलरी, एम० अशिकारी, (आई०सी० 37193) इन्फैन्ट्री, गुरमीत सिंह (आई०सी० 37194) ई०एम०ई०, कुलवीर सिंह (आई०सी० 37195) ए०ओ०सी० ए० डी० पान्दे (आई०सी० 37196) इन्फैन्ट्री, एम०के० पांडे (आई०सी० 37198) सिगनल्स (आई०सी०-37199) आर्टिलरी, वी०डी० अत्रे (आई०सी०-37200) आरमंड कोर, पी० एम० शेखावत (आई०सी०-37201), ए०एस०सी०, के०सी० परत (आई०सी०-37202) इन्फैन्ट्री, वी०के० शर्मा (आई०सी०-37203) इन्फैन्ट्री, वी० पोरयन (आई०सी०-37204) इन्फैन्ट्री, एम०ए० चौधरी (आई०सी०-37205) आर्टिलरी, एस० पशामानाथ (आई०सी०-37210) इन्फैन्ट्री एन०एस० जे०एस० सोलंकी (आई०सी०-37212) सिगनल्स, टी०पी० सिंह (आई०सी०-37213) आरमंड कोर—31 जुलाई, 1984।

एन०के० सिंह (आई०सी०-37215) इन्फैन्ट्री, ए०के०एम० चौहान (आई०सी०-37219), आर्टिलरी, उत्तम सिंह (आई०सी०-37220), इन्फैन्ट्री, आर० शखारिया (आई०सी०-37222), इन्फैन्ट्री, ए० चन्द्र (आई०सी०-37223), इन्फैन्ट्री, के०टी० उषीकुप्यन, (आई०सी०-37224) रजिनियर्स, सी० आर० देवानाथन (आई०सी०-37226), रजिनियर्स, एस० शावला (आई०सी०-37227), इन्फैन्ट्री, जी०डी०ई० बलवीराय (आई०सी०-37228), ई०एम०ई०, कुलवन्त सिंह (आई०सी०-37229) आरमंड कोर, ए०के० शर्मा (आई०सी०-37230), इन्फैन्ट्री, आई०के० माथूर (आई०सी०-37232) आर्टिलरी, ओ०पी० यादव (आई०सी०-37233), इन्फैन्ट्री, राज कुमार (आई०सी०-37234), इन्फैन्ट्री, जय प्रताप (आई०सी०-37236) इन्फैन्ट्री, अरमुगम् (आई०सी०-37237), रजिनियर्स, आई०के० पूरे (आई०सी०-37240), आरमंड कोर, जे० चन्द्र (आई०सी०-37241) इन्फैन्ट्री, जे० फ़िज़िक (आई०सी०-37243) आर्टिलरी, जे०के० उषूष (आई०सी०-37244), ए०ओ०सी०, आर० कुलकर्णी, (आई०सी०-37245), इन्फैन्ट्री, वी० सतानम (आई०सी०-37246), आर्टिलरी, जी०एस०च०देल (आई०सी०-37247) इन्फैन्ट्री, के०आर०शर्मा कुमार (आई०सी०-37254) आर्टिलरी, ए०शम (आई०सी०-37255) इन्फैन्ट्री, आर०एम० मनराल (आई०सी०-37256) इन्फैन्ट्री, वी०सी० बर्गी (आई०सी०-37258) रजिनियर्स, सूर्य कुमार (आई०सी०-37259) रजिनियर्स, एस०के० चतुर्वेदी (आई०सी०-37262) इन्फैन्ट्री, पी०के० उषल (आई०सी०-37264) आरमंड कोर, के०एम० वासन (आई०सी०-37265) आर्टिलरी—31 जुलाई, 1984।

पी०एस० मेहता (आई०सी०-37316) आरमंड कोर, ए०आर० साभूल (आई०सी०-37317) इन्फैन्ट्री, ए०विग (आई०सी०-37318) आर्टिलरी, विशम्बर खाल (आई०सी०-37320), आरमंड कोर, के० राधत (आई०सी०-37323) इन्फैन्ट्री, पी०पी०एस० बाल (आई०सी०-37324) ए०एस०सी०, सतीश कुमार (आई०सी०-37325) इन्फैन्ट्री, एस०एम० (आई०सी०-37327) ए०एस०सी०, जे०एस० पासा (आई०सी०-37328) इन्फैन्ट्री, वी०सेलवारज (आई०सी०-37329) आर्टिलरी, एन०बीज (आई०सी०-37331) आर्टिलरी, एम०पी० पार्टील (आई०सी०-37332), इन्फैन्ट्री, ए०एफ०बरत्रम (आई०सी०-37333) आर्टिलरी, वी०एस०जान्द (आई०सी०-37334) आर्टिलरी, राजेश सिंह (आई०सी०-37335) इन्फैन्ट्री, सधुद्र सिंह (आई०सी०-37336) इन्फैन्ट्री, एज०एस०आर (आई०सी०-37338) इन्फैन्ट्री, ए०बी० जोसफ (आई०सी०-37339) सिगनल्स वी०सी०बी०वाकरन (आई०सी०-37340), इन्फैन्ट्री, एन०बी०एस०कटोच (आई०सी०-37341) आरमंड

कोर, जी० सी० (आई० सी०-37343) इन्फैन्ट्री, ए० के० सूद (आई० सी०-37346) ब्राटिलरी, भार० जयरथ (आई० सी०-37349) ब्राटिलरी, एम० एम०, जैन (आई० सी०-37352) ए० प्रो० सी०, बी० रेता (आई० सी०-37354) ए० प्रो० सी०, रतवीर सिंह (आई० सी०-37355) इन्फैन्ट्री, हरिन्द्र सिंह (आई० सी०-37357) प्रारमर्ह कोर, राज कुमार (आई० सी०-37358) इन्फैन्ट्री, प्रो० एस० रेखरा (आई० सी०-37361) ब्राटिलरी, के० एम० जोधा (आई० सी०-37365) इन्फैन्ट्री—31 जुलाई, 1984।

आई० तरागी (आई० सी०-37367) इन्फैन्ट्री, बी० पी० चन्द्रा (आई० सी०-37368) ब्राटिलरी, ए० के० गंगुली (आई० सी०-37369) इन्फैन्ट्री, बलजीत सिंह (आई० सी०-37370) ए० प्रो० सी०, अशोक कुमार (आई० सी०-37371) ए० एस० गी०, बी० जी० करीयप्पा (आई० सी०-37372) इन्फैन्ट्री, प्रो० पी० यशव (आई० सी०-37373) ब्राटिलरी, बी० प्रकाश (आई० सी०-37376) इन्फैन्ट्री, डी० प्रार० शर्मा (आई० सी०-37378) इन्फैन्ट्री प्रार० एम० राघव (आई० सी०-37379) इन्फैन्ट्री, टी० बी० देवगुन (आई० सी०-37380) ब्राटिलरी, जसपाल सिंह (आई० सी०-37381) सिगनल्स, अरुण कुमार (आई० सी०-37382) सिगनल्स, नवल ककपुर (आई० सी०-37384) ब्राटिलरी, रवीन्द्र सिंह (आई० सी०-37385) सिगनल्स, बी० सपरा (आई० सी०-37386) इन्फैन्ट्री, कहेन्द्रा सिंह (आई० सी०-37387) इन्फैन्ट्री, एम० एम० नीगनीया (आई० सी०-37388) ब्राटिलरी, बी० एस० प्रेमाल (आई० सी०-37389) इन्फैन्ट्री, अशोक कुमार (आई० सी०-37391) ए० एस० सी० बजित सिंह (आई० सी०-37392) इन्फैन्ट्री, आई० मोहियुद्दीन (आई० सी०-37393) ए० प्रो० सी०, एम० एस० बीका (आई० सी०-37395) ब्राटिलरी पी० एम० राडीर (आई० सी०-37396) इन्फैन्ट्री, ए० विक्षित (आई० सी०-37397) इन्फैन्ट्री, प्रार० रत्नचन्द्र (आई० सी०-37398) इन्फैन्ट्री, ए० के० भारद्वाज (आई० सी०-37399) प्रारमर्ह कोर, के० पी० चौहान (आई० सी०-37400) इन्फैन्ट्री, एस० बरातोको (आई० सी०-37402) इन्फैन्ट्री, पी० नयभङ्गन (आई० सी०-37403) सिगनल्स—31 जुलाई, 1984।

गजेन्द्र सिंह (आई० सी०-37404) इन्फैन्ट्री, जी० पी० राजु (आई० सी०-37405) ब्राटिलरी, प्रार० के० जयरथ (आई० सी०-37406) इन्फैन्ट्री, राजेश्वर सिंह (आई० सी०-37407) इन्फैन्ट्री, जे० सी० ठाकुर (आई० सी०-37409) प्रारमर्ह कोर, एस० पाठक (आई० सी०-37410) इंजीनियर्स, बी० एस० लोणिया (आई० सी०-37412) इन्फैन्ट्री, पी० के० सिंह (आई० सी०-37416) ब्राटिलरी, एम० डी० गुप्ता (आई० सी०-37419) इन्फैन्ट्री, बी० के० यादव (आई० सी०-37420) इन्फैन्ट्री, पी० के० सरन (आई० सी०-37421) ब्राटिलरी, एस० बी० सिंह (आई० सी०-37423) इन्फैन्ट्री, जी० पी० कुमार (आई० सी०-37425) इन्फैन्ट्री, एस० खिलनानी (आई० सी०-37427) इन्फैन्ट्री, एच० पी० बसुना (आई० सी०-37428) इन्फैन्ट्री, प्रमोद कुमार (आई० सी०-37430) ब्राटिलरी, ए० गुप्ता (आई० सी०-37431) ब्राटिलरी, बी० प्रब (आई० सी०-37432) प्रारमर्ह कोर, प्रार० ए० रामपाल (आई० सी०-37436) इंजीनियर्स, जस्वीर सिंह (आई० सी०-37439) ब्राटिलरी, के० एस० कम्बोज (आई० सी०-37440) ई० एम० ई०, एस० पाण्डे (आई० सी०-37442) इन्फैन्ट्री, —31 जुलाई, 1984।

एम० एम० नायर (आई० सी०-38154) इन्फैन्ट्री, जे० लक्ष्मीराम (आई० सी०-38155) इन्फैन्ट्री, एम० थापा (आई० सी०-38156) इन्फैन्ट्री, आई० प्रसाद (आई० सी०-38157) इन्फैन्ट्री, प्रार० के० श्री खान्हे (आई० सी०-38158) ब्राटिलरी, के० सी० नैनन (आई० सी०-38159) इन्फैन्ट्री, प्रार० चौपड़ा (आई० सी०-38160) इन्फैन्ट्री, एस० राय (आई० सी०-38161) ब्राटिलरी एन० सिटी डोब (आई० सी०-38162) इन्फैन्ट्री, रविन्द्र सिंह (आई० सी०-38166) ए० प्रो० सी०, प्रार० के० गुप्ता (आई० सी०-38167) ब्राटिलरी, एस० बी० दलवी (आई० सी०-38169) प्रारमर्ह कोर, हरी कुमार टी० (आई० सी०-38171) ब्राटिलरी, एस० श्रीधर (आई० सी०-38176) ब्राटिलरी, एम० एम० वेव (आई० सी०-

38177) ब्राटीररी एफ० एस० सत्यानमेन (आई० सी०-38178) इन्फैन्ट्री, राजेन्द्र सिंह (आई० सी०-38179) ए० प्रो० सी०, एस० इस्सर (आई० सी०-38180) इन्फैन्ट्री, एम० एन० एम० धारा (आई० सी०-38182) ब्राटिलरी, एस० के० केमजोर (आई० सी०-38205) ए० ई० सी०, पी० पाल (आई० सी०-38208) ए० ई० सी०, प्रार० के० रस्तोगी (आई० सी०-38222) ए० ई० सी०, ए० सरीन (आई० सी०-38227), ए० ई०, सी०, एस० जोशी (आई० सी०-38228) ए० ई० सी०, जे० भोमस (आई० सी०-38229) ए० ई० सी०, पी० खारे (आई० सी०-38230) ए० ई० सी०, एम० चन्द्रा (आई० सी०-38231) ए० ई० सी०, के० कुमारस्वामी (आई० सी०-38236) ए० ई० सी०, के० एस० रेड्डी (आई० सी०-38238) ए० ई० सी०, ए० के उपरेती (आई० सी०-38252) ए० ई० सी०, बी० जी० राम (आई० सी०-38253) ए० ई० सी०—31 जुलाई, 1984।

ए० चाकी से० कर्मल, ए० एम० एम०

सं० 558 दिनांक 25 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति सहस्रक० आई० 226/68 के क्वीन निम्नलिखित पदोन्नतियां 22 नवम्बर 1984 से करते हैं।

नियमित सेना

शार्ट सविस कमीशन

कैप्टन से कुभासी सबस्टैंटिव मेजर के रैंक में

राके श्यामबनसल (बी० एफ०-733) प्रार० बी० सी०

उदय कुमार (बी० एस०-734) प्रार० बी० सी०

कृष्ण प्रताप (बी० एस०-735), प्रार० बी० सी०

रघवीर सिंह पांषल (बी० एस०-736) प्रार० बी० सी०।

श्रीमति बी० नागेश्वरी, प्रवर सचिव

सं० 559, दिनांक 1 मार्च 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित भ्रमसरों की पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

2/लैफ्टीनेंट से लैफ्टीनेंट

पी० एस० अहलावलत (एस० 30099) और एस० एस० हिलन (एस० एस० 3017) भाटीलरी 1 नितम्बर, 1981

भाशोक चकी लैफ्टी० कर्नल ए० एम० एस०

सं० 560, दिनांक 23 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित भ्रमसर की पदोन्नति करते हैं:—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन से मेजर

जे० एन० प्रो० आसदी (डी० 41267), इंजीनियर्स, 11 अगस्त, 1982।

एच० डी० सिन्हा, प्रवर सचिव

सं० 561, दिनांक 26 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना

सेना सेवा कोर

(सप्लार्ड)

पम्के सुबेदार (अभ्यक्तगत सहायक के रैंक में)

सुबेदार कुंवर मिह (जे० सी० 111268 एम०), 20 जुलाई 1984।

सुबेदार श्री राम (जे० सी० 111269 पी०), 21 जुलाई 1984।

पक्के सुबेदार मेजर कर्क (सामान्य इयूटी स्टाफ इयूटी) के रैंक में सुबेदार मेजर जोरज सी० जी० (जे० सी० 71343 ए०), 1 जुलाई 1984।

सुबेदार मेजर के० एस० कल्हा सामी (जे० सी० 71347 इन्फ्यू०), 1 जुलाई 1984।

सुबेदार मेजर राज बेद शर्मा (जे० सी० 73304 ए०), 1 अगस्त 1984।

सुबेदार मेजर गोपाला कृष्णनमायर (जे० सी० 73305 ए०), 1 अगस्त 1984।

पक्के सुबेदार कर्क (सामान्य इयूटी स्टाफ इयूटी) के रैंक में सुबेदार सरमन सिंह कुशवाहा (जे० सी० 99977 ए०), 1 जुलाई 1984।

सुबेदार सुधिरा चन्द्र वेव (जे० सी० 99978 पी०), 1 जुलाई 1984।

सुबेदार वैष्णव नाम सिंह (जे० सी० 99979 ए०), 1 अगस्त 1984।

सुबेदार जान मोहम्मद खान (जे० सी० 99980 ए०), 1 अगस्त 1984।

सुबेदार निधी कानता सिन्हा (जे० सी० 99981 पी०), 31 अगस्त 1984।

सेना सेवा कोर

पशु परिवहन

रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार राम प्रसाद (जे० सी०-71333 ए०), 1 अगस्त 1984।

रिसालदार सुबेदार के रैंक में

नायब रिसालदार माया राम (जे० सी०-99726 ए०), 2 मार्च 1984।

नायब रिसालदार हरि दत्त भट्ट (जे० सी०-99728 ए०), 1 जुलाई 1984।

नायब रिसालदार राम शीतार (जे० सी०-99729 इन्फ्यू०), 1 अगस्त 1984।

नायब रिसालदार राम सरूप (जे० सी०-99730 ए०), 1 सितम्बर 1984।

नायब रिसालदार किशन चन्द (जे० सी०-99731 ए०), 1 सितम्बर 1984।

नायब रिसालदार रामेश्वर सिंह सोनकर (जे० सी०-103093 ए०), 1 सितम्बर 1984।

नायब रिसालदार मुरली धर (जे० सी० -103094 ए०), 1 अक्टूबर 1984।

नायब रिसालदार देवी दत्त पाठक (जे० सी० -103095 ए०), 1 दिसम्बर 1984।

नायब सुबेदार राम दुलार राम (जे० सी० -85215 पी०), 1 दिसम्बर 1984।

नायब सुबेदार बृजराज पालीवाल (जे० सी० -98606 के०), 1 दिसम्बर 1984।

नायब सुबेदार रुमान सिंह (जे० सी० -105897 इन्फ्यू०), 1 अक्टूबर 1984।

श्रीमति धी० नागेश्वरी, अवर सचिव

सं० 562, दिनांक 23 फरवरी 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

सोपबाना रेजीमेंट

सुबेदार मेजर के पद में

सुबेदार तलबीर सिंह (जे० सी० 53662 के०), 1 नवम्बर 1984।

सुबेदार हरदयाल सिंह कालर (जे० सी० 73626 ए०), 1 नवम्बर 1984।

सुबेदार राम सोलंकी (जे० सी० 66804 पी०), 1 नवम्बर 1984।

सुबेदार गजराज सिंह (जे० सी० 73627 ए०), 1 नवम्बर 1984।

सुबेदार विल बहादुर बापा (जे० सी० 76828 ए०), 1 नवम्बर 1984।

सुबेदार सरदुल सिंह (जे० सी० 58658 ए०), 1 नवम्बर 1984।

सुबेदार के पद में (कलर्क जी० डी०/एस० के० टी०)

नायब सुबेदार टी० जनाधनन नामबियर (जे० सी० 107559 पी०), 1 नवम्बर 1984।

नायब सुबेदार द्वारा सिंह वहीया (जे० सी० 112254 आई०), 1 नवम्बर 1984।

नायब सुबेदार शंकर राम यादव (जे० सी० 114490 आई०), 1 नवम्बर 1984।

नायब सुबेदार अलबेल सिंह तुर (जे० सी० 111578 ए०), 1 नवम्बर 1994।

नायब सुबेदार प्रीतम सिंह (जे० सी० 112255 ए०), 1 नवम्बर 1984।

सुबेदार के पद में (ए० आई० जी०/टी० आई० ए० सी०)

नायब सुबेदार फुमान सिंह (जे० सी० 92991 ए०), 1 नवम्बर 1984।

नायब सुबेदार ऊमा नन्व (जे० सी० 95139 ए०), 1 नवम्बर 1984।

नायब सुबेदार शीतार सिंह (जे० सी० 95135 के०), 1 नवम्बर 1984।

नायब सुबेदार राम रतन सिंह चौहान (जे० सी० 92992 आई०), 1 नवम्बर 1984।

नायब सुबेदार नारायण दत्त जोशी (जे० सी० 92993 ए०), 1 नवम्बर 1984।

गीतम सिंह, अवर सचिव

सुबेदार के पद में

नायब सुबेदार शंकर दास (जे० सी० 109004 ए०), 1 दिसम्बर 1983।

नायब सुबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 120375 पी०) 01 दिसम्बर 1983।

- नायब सुबेदार करतार चन्द (जे० सी० 109012 एल०), 1 मार्च 1984।
- नायब सुबेदार कृष्णचन्द मिह (जे० सी० 112236 डब्ल्यू०), 1 मार्च 1984।
- नायब सुबेदार राजीन्द्र बाहादुर मिह (जे० सी० 110119 एम०), 1 अप्रैल 1984।
- नायब सुबेदार छोटे लाल (जे० सी० 108682 ए०), 1 अप्रैल 1984।
- नायब सुबेदार प्रताप सिंह (जे० सी० 118264 वाई०), 2 अप्रैल 1984।
- नायब सुबेदार हिम्मत सिंह (जे० सी० 112201 ए०), 31 अगस्त 1984।
- नायब सुबेदार जोगीन्द्र सिंह (जे० सी० 106291 डब्ल्यू०) 1 सितम्बर 1984।
- नायब सुबेदार सुख देव सिंह (जे० सी० 109549 के०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार सरबन सिंह (जे० सी० 104591 वाई०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार कृष्णा बीर लामा (जे० सी० 106665 एफ०), 1 नवम्बर 1984।
- नायब सुबेदार रञ्जीत सिंह (जे० सी० 109041 ए०), 1 दिसम्बर 1984।
- नायब सुबेदार जोगीन्द्र सिंह (जे० सी० 106651 एफ०), 1 दिसम्बर 1984।
- नायब सुबेदार पंजाब सिंह (जे० सी० 109641 एच०) 1 दिसम्बर 1984।
- नायब सुबेदार अमरीक सिंह (जे० सी० 124070 एम०), 1 जनवरी 1985।
- नायब सुबेदार बलकार सिंह (जे० सी० 106942 एफ०), 1 जनवरी 1985।
- नायब सुबेदार काश्मीरा सिंह (जे० सी० 112076 एफ०), 1 जनवरी 1985।
- नायब सुबेदार जागीर सिंह (जे० सी० 109915 के०), 1 जनवरी 1985।
- नायब सुबेदार बलामुखन शिवदासन (जे० सी० 107688 एफ०) 1 जून 1983।
- नायब सुबेदार शिव शम्कर (जे० सी० 108709 एम०), 1 सितम्बर 1983।
- नायब सुबेदार हरी वाघ (जे० सी० 108782 एक्स०), 1 फरवरी 1984।
- नायब सुबेदार राज पाल सिंह (जे० सी० 111878 एन०), 1 मार्च 1984।
- नायब सुबेदार बनवारी लाल (जे० सी० 112062 एफ०), 1 मार्च 1984।
- नायब सुबेदार गोरख नाथ सिंह (जे० सी० 108713 पी०), 21 मार्च 1984।
- नायब सुबेदार तारा सिंह (जे० सी० 109594 एन०), 1 अप्रैल 1984।
- नायब सुबेदार करतार सिंह (जे० सी० 98397 एन०), 1 जून 1984।
- नायब सुबेदार मंगल राम (जे० सी० 114232 वाई०), 1 जून 1984।
- नायब सुबेदार जी० ईजहुमलाई (जे० सी० 123498 पी०), 1 जून 1984।
- नायब सुबेदार जसवन्त सिंह (जे० सी० 124093 एम०), 15 जून 1984।
- नायब सुबेदार सत्यम लाल (जे० सी० 107539 एफ०), 1 जुलाई 1984।
- नायब सुबेदार मुलीवासन (जे० सी० 107482 एक्स०), 1 जुलाई 1984।
- नायब सुबेदार बानु राव सावंत (जे० सी० 112133 के०), 1 जुलाई 1984।
- नायब सुबेदार बन्नी सिंह (जे० सी० 111945 वाई०), 1 जुलाई 1984।
- नायब सुबेदार अजमेर सिंह (जे० सी० 127828 एक्स०), 1 जुलाई 1984।
- नायब सुबेदार रमेश चन्द (जे० सी० 105184 एम०), 1 सितम्बर 1984।
- नायब सुबेदार बाबु सिंह (जे० सी० 112238 एफ०), 1 सितम्बर 1984।
- नायब सुबेदार प्रीषी सिंह (जे० सी० 123988 ए०), 1 सितम्बर 1984।
- नायब सुबेदार श्री राम यादव (जे० सी० 101059 एफ०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार प्रेम सिंह (जे० सी० 109047 एफ०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार बनवारी लाल (जे० सी० 109056 एफ०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार शिव शम्कर सिंह (जे० सी० 119813 ए०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार पुर्ण सिंह (जे० सी० 118223 पी०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार भतुकुर पेरुमस वुराई स्वामी (जे० सी० 108261 एक्स०), 1 अक्टूबर 1984।
- नायब सुबेदार होशियार सिंह (जे० सी० 123974 एक्स०), 1 नवम्बर 1984।
- नायब सुबेदार के० रामाधुल्ला (जे० सी० 120174 डब्ल्यू०), 1 नवम्बर 1984।
- नायब सुबेदार श्री नारायणा पिल्ले महाश्रीलकटन (जे० सी० 112102 के०), 1 दिसम्बर 1984।

नियमित सेवा

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सुबेदार (वाई ग्राफ एस०) के रैंक में

हवलदार श्रीनिवासन रामानुजम (सं० 6297250 एक्स० अथवा जे० सी० 141078 पी०) 21 सितम्बर 1984।X

X (नायब सुबेदार के रैंक में बेटन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना व्योचता 1 अगस्त 1984 से ही जायेगी।



- हवलदार नसीब चन्द (सं० 14200141 पी० अथ० जे० सी० 141079 एक्स०) 22 अगस्त 1984।××
- ×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार भरनाम सिंह (सं० 14201610 वाई० अथ० जे० सी० 141080 एम०) 8 सितम्बर 1984।×××
- ××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार राम चन्द्र धनवास (सं० 14201511 डब्ल्यू० अथ० जे० सी० 141081 पी०) 7 अगस्त 1984।=
- = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार नटेशन मनोहरन (सं० 14277317 पी० अथ० जे० सी० 141082 एक्स०) 28 अगस्त 1984।==
- == (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार अश्विनी कुमार (सं० 14279916 एन० अथ० जे० सी० 141083 ए०) 6 अगस्त 1984।==
- == (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार राजा राम विश्वकर्मा (सं० 6325924 एच० अथ० जे० सी० 141084 एच०) 11 अगस्त 1984।×
- × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार बालेश्वर राय (सं० 6315010 एल० अथ० जे० सी० 141085 एल०) 1 अगस्त 1984।
- हवलदार सत्य नारायण वर्मा (सं० 6308404 एफ०) अथ० जे० सी० 141086 एन०) 28 अगस्त 1984।××
- ×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार अजीत सिंह (सं० 14200312 डब्ल्यू० अथ० जे० सी० 141087 डब्ल्यू०) 8 अगस्त 1984।×××
- ××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार जगवीर सिंह (सं० 14280424 एफ० अथ० जे० सी० 141088 वाई०) 10 अगस्त 1984।=
- = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार हनुमानन्दा साठु (सं० 14210172 एथ० अथ० जे० सी० 141089 एफ०) 10 अगस्त 1984।==
- == (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- नायब सूबेदार (एफ० ऑफ एस०) के रैंक में
- हवलदार भगत सिंह राठीर (सं० 6320359 एम० अथ० जे० सी० 141090 डब्ल्यू०) 21 अगस्त 1984।==
- == (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार लुधी सिंह चौहान (सं० 6325747 एन० अथ० जे० सी० 141091 वाई०) 10 अगस्त 1984।\*
- \* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार मेघ सिंह श्रीपाल (सं० 6314792 ए० अथ० जे० सी० 141092 एफ०) 8 अगस्त 1984।\*\*\*
- \*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार रूप चन्द (सं० 6317562 एक्स०) अथ० जे० सी० 141093 के०) 2 सितम्बर 1984।×
- × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार शिवा प्रसाव (सं० 6309078 डब्ल्यू० अथ० जे० सी० 141094 एम०) 10 अगस्त 1984।××
- ×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार रघुनन्दन सिंह (सं० 6326715 एक्स० अथ० जे० सी० 141095 पी०) 1 अगस्त 1984।
- हवलदार पिसाल तानाजी बाबू राव (सं० 14281685 एफ० अथ० जे० सी० 141096 एक्स०) 10 अगस्त 1984।×××
- ××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार अयतार सिंह पठानिया (सं० 14212847 डब्ल्यू० अथ० जे० सी० 141097 ए०) 7 अगस्त 1984।=
- = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार श्रीनिवासन राजा राम (सं० 14285462 एफ० अथ० जे० सी० 141098 एच०) 10 अगस्त 1984।==
- == (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार शिव राम (सं० 1421471 9 एक्स० अथ० जे० सी० 141099 एल०) 19 अगस्त 1984।==
- == (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार कादीरी यॅल्लाप्पा (सं० 14218201 एफ० अथ० जे० सी० 141100 पी०) 28 अगस्त 1984।\*
- \* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार हरशेख सिंह (सं० 14218336 एथ० अथ० जे० सी० 141101 एक्स०) 14 अगस्त 1984।\*\*
- \*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार प्रियातोश विश्वास (सं० 14218807 एल० अथ० जे० सी० 141102 ए०) 4 अगस्त 1984।×
- × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार शिव राम सहाय भगत (सं० 14220028 एफ० अथ० जे० सी० 141103 एच०) 21 अगस्त 1984।××
- ×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

- हवलदार राम कुमार (सं० 14220008 एन० अरब जे० सी०-141104 एन०) —18 सितम्बर 1984। × × ×
- × × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार नन्द किशोर सिंह (सं० 14212412 एन० अरब जे० सी०-141105 एन०) —12 अगस्त 1984। =
- = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार धनपत सिंह (सं० 14219525 वार्ड० अरब जे० सी०-141106 डब्ल्यू०) —19 अगस्त 1984। = =
- = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार सबास्टियन के० जे० (सं० 14290515 वार्ड० अरब जे० सी०-141107 वार्ड०) —10 अगस्त 1984। = = =
- = = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार सन्निधानन्द चौधरी (सं० 14202788 एफ० अरब जे० सी०-141108 एफ०) —8 अगस्त 1984। "
- " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार रणजीत सिंह बहनीवाल (सं० 14203002 डब्ल्यू० अरब जे० सी०-141109 के०) —18 अगस्त 1984। "
- " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार किसान लख कटोच (सं० 14291198 पी० अरब जे० सी०-141110 वार्ड०) —1 अगस्त 1984।
- हवलदार तारा सिंह (सं० 6312621 पी० अरब जे० सी०-141111 एफ०) —16 अगस्त 1984। ×
- × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार विन्देश्वरी प्रसाद (सं० 14207821 वार्ड० अरब जे० सी०-141112 के०) —3 सितम्बर 1984। × ×
- × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार महेश्वर राय (सं० 14211769 एफ० अरब जे० सी०-141113 एम०) —7 अगस्त 1984। × × ×
- × × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार दिनेश कुमार (सं० 14285074 के० अरब जे० सी०-141114 पी०) —1 अगस्त 1984।
- हवलदार केवल सिंह मुद्दी (सं० 14285925 एन० अरब जे० सी०-141115 एक्स०) —1 अगस्त 1984।
- हवलदार शिखासा सेट्टी अमरुथुर नरजा सेट्टी (सं० 14214476 एम० अरब जे० सी०-141116 ए०) —7 अगस्त 1984। =
- = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार भोसले अशोक लक्ष्मण (सं० 14289143 एम० अरब जे० सी०-141117 एव०) —25 अगस्त 1984। = =
- = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार कौकल राम बिश्नोई (सं० 14218144 एन० अरब जे० सी०-141118 एन०) —1 अगस्त 1984।
- हवलदार सीता राम ठाकुर (सं० 14290730 के अरब जे० सी०-141119 एन०) —14 अगस्त 1984। ×
- × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार सरवन सिंह (सं० 14290821 एन० अरब जे० सी०-141120 एव०) —9 अगस्त 1984। × ×
- × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार काशी नाथ झा (सं० 14220071 एव० अरब जे० सी०-141121 एन०) —17 अगस्त 1984। × × ×
- × × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार नजीर अलम अन्सारी (सं० 14214114 डब्ल्यू० अरब जे० सी०-141122 एन०) —10 अगस्त 1984। =
- = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार लखन प्रसाद (सं० 14290661 वार्ड० अरब जे० सी०-141123 डब्ल्यू०) —9 अगस्त 1984। = =
- = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार विष्वालिगम सुंदर मनी (सं० 14216568 एव० अरब जे० सी०-141124 वार्ड०) —8 अगस्त 1984। = = =
- = = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार हरबियाल सिंह (सं० 14212865 वार्ड० अरब जे० सी०-141125 एफ०) —1 अगस्त 1984।
- हवलदार धरमाराजन वभूर कृष्णी कन्नन (सं० 14219926 एन० अरब जे० सी०-141126 के०) —21 अगस्त 1984। "
- " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार हरभजन सिंह (सं० 14283230 के० अरब जे० सी०-141127 एम०) —13 अगस्त 1984। "
- " (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार बाबू राम (सं० 6310613 एफ० अरब जे० सी०-141128 पी०) —14 अगस्त 1984। ×
- × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार करम सिंह (सं० 14290860 एम० अरब जे० सी०-141129 एफ०) —14 अगस्त 1984। × ×
- × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदाय भास्करन सी० (सं० 14285181 एन० अरब जे० सी०-141130 एम०) —9 अगस्त 1984। × × ×
- × × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।
- हवलदार भोर सिंह (सं० 14211195 डब्ल्यू० अरब जे० सी०-141131 पी०) —10 अगस्त 1984। =
- = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार राजा राम (सं० 14290369 के अग्र जे० सी०-141132 एक्स०)—6 अगस्त 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार सुभाषा धियागाराजन (सं० 14216570 ए० अग्र जे० सी०-141133 ए०)—11 अगस्त 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (ओपी सार्दफर) के रैंक में

हवलदार बच्चा प्रसाद शर्मा (सं० 6318457 ए० अग्र जे० सी०-141134 ए०)—9 जुलाई 1984।°

° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार हंस राज आवला (सं० 6298200 ए० अग्र जे० सी०-141135 ए०)—30 मई 1984।°°

°° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार द्रव्येश्वर प्रसाव (सं० 6291204 ए० अग्र जे० सी०-141136 ए०)—18 जून 1984।°°°

°°° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार बलदेव राज (सं० 6288075 ए० अग्र जे० सी०-141137 डब्ल्यू०)—18 अगस्त 1984।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार के० नारायणन (सं० 6303688 ए० अग्र जे० सी०-141138 वार्ड०)—13 अगस्त 1984।××

×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार महीपाल सिंह (सं० 6299226 ए० अग्र जे० सी०-141139 एफ०)—21 अगस्त 1984।×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार मोहन कुलकर्णी (सं० 6321535 ए० अग्र जे० सी०-141140 डब्ल्यू०)—1 अगस्त 1984।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं० 6303564 एक्स० अग्र जे० सी०-141141 वार्ड०)—9 अगस्त 1984।

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार विनायक बागें (सं० 6277188 पी० अग्र जे० सी०-141142 एफ०)—1 सितम्बर 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार राम सिंह (सं० 6300385 ए० अग्र जे० सी०-141143 के०)—11 अगस्त 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार नारायण कुरूप सहबवा कुरूप (सं० 6307184 डब्ल्यू० अग्र जे० सी०-141144 ए०)—18 अगस्त 1984।°

° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार भवानी राम (सं० 6307393 ए० अग्र जे० सी०-141145 पी०)—25 अगस्त 1984।°°

°° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार नियामत मसीह (सं० 6307396 एफ० अग्र जे० सी०-141146 एक्स०)—20 अगस्त 1984।°°°

°°° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार तरसेम सिंह (सं० 6302244 डब्ल्यू० अग्र जे० सी०-141147 ए०)—24 अगस्त 1984।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार प्रभोक बोराटे (सं० 6306634 डब्ल्यू० अग्र जे० सी०-141148 ए०)—18 अगस्त 1984।××

×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार समय लाल यादव (सं० 6307559 के० अग्र जे० सी०-141149 ए०)—13 सितम्बर 1984।×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार रामजी लाल (सं० 6307676 पी० अग्र जे० सी०-141150 ए०)—28 अगस्त 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार धनुष पराम्पिल चाकी धोमस (सं० 6307503 एक्स० अग्र जे० सी०-141151 ए०)—10 सितम्बर 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार गिषा राम (सं० 6307660 के० अग्र जे० सी०-141152 ए०)—18 अगस्त 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार गोपाला कृष्णन नायर (सं० 6323880 एक्स० अग्र जे० सी०-141153 ए०)—14 अगस्त 1984।°

° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार शशांक गोखर वत्ता (सं० 6308650 ए० अग्र जे० सी०-141154 एड्यू०)—7 अगस्त 1984।°°

°° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (और पी० स्पेशल) के रैंक में

हवलदार हरी शंकर प्रसाव (सं० 6283646 डब्ल्यू० अग्र जे० सी०-141155 वार्ड०)—13 जुलाई 1984।°°°

°°° (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जायेगी)।

हवलदार सतबीर सिंह सुरी (सं० 6325450-ए० अग्र जे० सी०-141156-एफ०)—27 अगस्त 1984।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार (क्लर्क जी० डी०) के रैंक में  
हवलदार रंगन कालिया पेरूमल (सं० 6639547-एफ० अरब जे० सी०-141157-के०)—1 मई 1984।

हवलदार नेक चन्द (सं० 6639588-एल० अरब जे० सी०-141158-एम०)—14 अगस्त 1984। × ×

× × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार रणधीर सिंह (सं० 6321041-एफ० अरब जे० सी०-141159-पी०)—19 जुलाई 1984। × × ×

× × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार शिव कुमार सिंह (सं० 6639678-एम० अरब जे० सी०-141160-के०)—18 जुलाई 1984। =

= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार पुष्पिमुतीस वाक्ये जाजं (सं० 6295809-एल० अरब जे० सी०-141161-एम०)—29 जून 1984। = =

= = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार केसर सिंह (सं० 6639680-एल० अरब जे० सी०-141162-पी०)—14 सितम्बर 1984। = = =

= = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार जगत नारायण द्विवेदी (सं० 6299903-एम० अरब जे० सी०-141163-एफ०)—16 अगस्त 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार मोम प्रकाश (सं० 6639740-एन० अरब जे० सी०-141164-ए०)—15 जून 1984।

हवलदार धरम पाल सिंह (सं० 6639763-पी० अरब जे० सी०-141165-एच०)—2 अगस्त 1984। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार चिन्मीबाली कासिमसाब काडिवाल (सं० 6321140-के० अरब जे० सी०-141166-एल०)—26 जून 1984। × ×

× × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार मोम्मन धर्गिशा (सं० 6295065-एल० अरब जे० सी०-141167-एन०)—4 जुलाई 1984। × × ×

× × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

हवलदार कुरीयन पी० सी० (सं० 6300963-एम० अरब जे० सी०-141168-डब्ल्यू०)—10 जुलाई 1984। =

= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जून 1984 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार सुरेश चन्दर (सं० 6281580-एन० अरब जे० सी०-141169-वाई०)—9 अक्टूबर 1984। = = =

= = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1984 से दी जाएगी)

हवलदार चितामणी पांडे (सं० 6283743-एन० अरब जे० सी०-141170-एन०)—1 अगस्त 1984। = = = =

= = = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1984 से दी जाएगी)

हवलदार महेन्द्र सिंह यादव (सं० 6282248-एच० अरब जे० सी०-141171-डब्ल्यू०)—5 मई 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1984 से दी जाएगी)

हवलदार कजेशम राव श्रीपाद राव (सं० 6285563-के० अरब जे० सी०-141172-वाई०)—19 जून 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1984 से दी जाएगी)

हवलदार अर्जुन पाण्डेय (सं० 6284774-ए० अरब जे० सी०-141173-एफ०)—27 जुलाई 1984। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई 1984 से दी जाएगी)

हवलदार सिद्धार्थन टी० के० (सं० 6285407-ए० अरब जे० सी०-141174-के०)—21 अगस्त 1984। × ×

× × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार रामेश्वर सिंह (सं० 6284132-एल० अरब जे० सी०-141175-एम०)—29 अगस्त 1984। × × ×

× × × (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार बेहारी लाल (सं० 6287677-एन० अरब जे० सी०-141176-पी०)—14 सितम्बर 1984। =

= (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार हरपाल सिंह (सं० 6288055-वाई० अरब जे० सी०-141177-एफ०)—6 सितम्बर 1984। = = =

= = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार अगस्टी टी० (सं० 6288191-एल० अरब जे० सी०-141178-ए०)—21 अगस्त 1984। = = = =

= = = = (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार मृगाल कल्लि घोष (सं० 6287325-डब्ल्यू० अरब जे० सी०-141179-एच०)—22 अगस्त 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार राम नारायण (सं० 6288772-एम० अरब जे० सी०-141180-एफ०)—3 सितम्बर 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार गुरनाम सिंह (सं० 6290633-एफ० अरब जे० सी०-141181-ए०)—11 सितम्बर 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार एन० के० कुन्ही कन्नन (सं० 6282184-एच० अरब जे० सी०-141182-एच०)—13 अगस्त 1984। ×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार चम्बेल सिंह (सं० 6281497-पी० अथ जे० सी०-141183-एल०)—21 अगस्त 1984%××

×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार पूष्कलांगारा जनार्दनन (सं० 6295224-एक्स० अथ जे० सी०-141184-एन०)—21 अगस्त 1984।×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार मोहन सिंह (सं० 6282328-ए० अथ जे० सी०-141185-इड्यू०)—10 अगस्त 1984।==

==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)

हवलदार शिव नारायण शर्मा (सं० 6297189-वाई० अथ जे० सी०-141586-वाई०)—8 सितम्बर 1984।==

==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार कुमारन इम्थु विल्ने (सं० 6283955-वाई० अथ जे० सी०-141187-एफ०)—6 सितम्बर 1984।==

== (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार अश्विनी कुमार पाण्डेय (सं० 6297991-पी० अथ जे० सी०-141188-के०)—14 अगस्त 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार अमृत कुमार वेब (सं० 6298462-पी० अथ जे० सी०-141189-एम०)—18 सितम्बर 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार एम० गोकुलन (सं० 6287241-एच० अथ जे० सी०-141190-एफ०)—28 अगस्त 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार प्रह्लाद प्रसाद श्रीवास्तवा (सं० 6288850-वाई० अथ जे० सी०-141191-के०)—14 अगस्त 1984।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार अशीमुलम नमशिवायम (सं० 6285907-एक्स० अथ जे० सी०-141192-एम०)—27 अगस्त 1984।××

×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार बी० पी० नटराजन (सं० 6276172-एक्स० अथ जे० सी०-141193-पी०)—10 सितम्बर 1984।×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार जसवंत सिंह (सं० 6285130-एम० अथ जे० सी०-141194-एक्स०)—6 सितम्बर 1984।=

=(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जायेगी)

हवलदार परबत सिंह (सं० 6276386-एन० अथ जे० सी०-141195-ए०)—1 अगस्त 1984।

हवलदार राजा गोपालन (सं० 6278572-एच० अथ जे० सी०-141196-एच०)—17 अगस्त 1984।==

==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार गुलाब राव देगमुख (सं० 6285739-के० अथ जे० सी०-141197-एल०)—18 अगस्त 1984।==

==(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार सुरजीत सिंह (सं० 6285900-एम० अथ जे० सी०-141198-एन०)—28 अगस्त 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार बहादुर सिंह (सं० 6295315-एफ० अथ जे० सी०-141199-इड्यू०)—31 अगस्त 1984।"

"(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार भानु गोपाल पटनायक (सं० 6275115-के० अथ जे० सी०-141200-ए०)—16 अगस्त 1984।×

× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार ब्रिज नाथ सिंह (सं० 6306896-एम० अथ जे० सी०-141201-एच०)—4 सितम्बर 1984।××

×× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

हवलदार कुलदीप राय (सं० 6286347-एच० अथ जे० सी०-141202-एल०)—12 सितम्बर 1984।×××

××× (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1984 से दी जाएगी)

गौतम सेन, अवर सचिव

सं० 563, दिनांक 23 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

नियमित सेना

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

सूबेदार मेजर टैकिफल और आरटीजन (इलिजिबिल कैटेगरीज) के रैंक में

सूबेदार अमरजीत सिंह गिल (जे० सी०-52431-एफ०)—01 मई 1984।

सूबेदार लायफ राम (जे० सी०-52735-वाई०)—01 अक्टूबर 1984।

सूबेदार अजित कुमार सामन्त (जे० सी०-52906-ए०)—01 नवम्बर 1984।

सूबेदार साहब सिंह (जे० सी०-52907-एच०)—01 नवम्बर 1984।

सूबेदार मेजर आर्टिजन (नान इलिजिबिल कैटेगरीज) के रैंक में

सूबेदार रामेश्वर लाल (जे० सी०-85019-एन०)—01 नवम्बर 1984।

सूबेदार मेजर आरमोर के रैंक में

सूबेदार उत्तम सिंह (जे० सी०-80210-एल०)—01 अक्टूबर 1984।

- सूबेदार नरंजन सिंह (जे० सी०-80212-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।
- सूबेदार चिन्तामनि वेद्योरारी (जे० सी०-80447-एच०)--01 अक्टूबर 1984।
- सूबेदार गुहदेव सिंह बाजवा (जे० सी०-80217-पी०)--01 अक्टूबर 1984।
- सूबेदार मेजर क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में  
टी० गोपालन (जे० सी०-59163-एल०)--01 नवम्बर 1984।
- सूबेदार मेजर स्टोर कीपर टैक्निकल के रैंक में  
सूबेदार शिव चन्द्र (जे० सी०-57726-एफ०)--01 सितम्बर 1984।
- सूबेदार आर० मथु सामी (जे० सी०-58765-एम०)--01 अक्टूबर 1984।
- सूबेदार ज्ञान सिंह विक्रं (जे० सी०-59165-डब्ल्यू०)--01 नवम्बर 1984।
- सूबेदार मेजर शर्द्वर (एम० टी०) के रैंक में  
सूबेदार के० पी० केपथन (जे० सी०-76733-एम०)--01 सितम्बर 1984।
- सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-76726-ए०)--01 सितम्बर 1984।
- सूबेदार मेजर रिक्वरी मेक० के रैंक में  
सूबेदार मंगलेश सिंह गोडवाल (जे० सी०-88337-एच०)--01 अक्टूबर 1984।
- सूबेदार टेक्निकल और आर्टिजन (इंलजिबिल कॅटेगरीज) के रैंक में  
नायब सूबेदार बलसी था० के० (जे० सी०-98973-के०)--01 जुलाई 1984।
- नायब सूबेदार एम० लक्षमन (जे० सी०-110704-वार्ड०)--01 जुलाई 1984।
- नायब सूबेदार किशन नरमाजी वांषडे (जे० सी०-99258-एन०)--01 अगस्त 1984।
- नायब सूबेदार शेर रतधीर सिंह (जे० सी०-97779-एच०)--01 सितम्बर 1984।
- नायब सूबेदार बुध्ना दिक्षा (जे० सी०-97783-एल०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार सुबे सिंह बलहरा (जे० सी०-99249-एम०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार रामजीत सिंह (जे० सी०-103750-वार्ड०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार सजनापू बेकटेश्वर आचार्य (जे० सी०-99262-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार बाबा सिंह (जे० सी०-103760-एच०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार रघुबीर सिंह शर्मा (जे० सी०-99263-वार्ड०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार किशन लाल (जे० सी०-99264-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार विनायक बलिरामण शिरमाटे (जे० सी०-96367-पी०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार गौरी शंकर सिंह (जे० सी०-96368-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद (जे० सी०-116922-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार राम नरेण (जे० सी०-110318-ए०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार बारयम सिंह (जे० सी०-108047-पी०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार उदय भानु सिंह (जे० सी०-108050-पी०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-102052-ए०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार राम प्रकाश शर्मा (जे० सी०-108053-एच०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार केवल कृष्ण (जे० सी०-110278-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार कुलानन्द कोटियाम (जे० सी०-108054-एल०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार बंसी लाल शर्मा (जे० सी०-108056-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार हंस राज (जे० सी०-108057-वार्ड०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार कमला कानु भा (जे० सी०-108058-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार पी० टीएटस (जे० सी०-108059-के०)--01 अक्टूबर 1984।
- सूबेदार टेक्निकल और आर्टिजन (इंलजिबिल कॅटेगरीज) के रैंक में  
नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-108060-वार्ड०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार जयराम सिंह कटोच (जे० सी०-108062-के०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जे० सी०-108064-पी०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार श्याम सिंह ठपोला (जे० सी०-110260-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जे० सी०-91578-एन०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार रामजि लाल वर्मा (जे० सी०-80492-पी०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार हरि नारायण राय चौधरी (जे० सी०-110261-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार राजेन्द्र पान्डे (जे० सी०-98977-ए०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार बुध्नाल सिंह (जे० सी०-98978-एच०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार हरि सिंह (जे० सी०-97784-एन०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार आनन्द बल्लभ (जे० सी०-96094-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार पी० के० रामचन्द्रन (जे० सी०-109819-एन०)--01 अक्टूबर 1984।
- नायब सूबेदार नरेन्द्र दत्त (जे० सी०-108065-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर स्वेन (जे० सी०-108066-ए०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार राम प्रसाद दुबे (जे० सी०-108067-एच०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार एस० पी० आरोकिया स्वामी (जे० सी०-108068-एल०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जे० सी०-108069-एन०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार श्रीम प्रकाश (जे० सी०-108070-एच०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार किशन कपाल शर्मा (जे० सी०-110281-के०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार प्रभात राम (जे० सी०-108071-एल०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-108073-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार काशमीर सिंह (जे० सी०-108075-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।

सूबेदार आर्टिजन (नान इल्लिजिबिल कोटेगरीज) के रैंक में  
नायब सूबेदार हरपाल सिंह बलिहोन (जे० सी०-114606-के०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार रामेश्वर सिंघ (जे० सी०-114576-ए०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार मनशा राम (जे० सी०-114577-एम०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार मुधीर कुमार दास (जे० सी०-116793-एम०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार श्रीम प्रकाश (जे० सी०-116794-पी०)--01 नवम्बर 1984।

सूबेदार आरमोरर के रैंक में

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जे० सी०-110502-एल०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार शबर सिंह (जे० सी०-110503-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जे० सी०-110504-के०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार राम चन्द्र भद्रालकर (जे० सी०-110505-वाई०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार केशव राय नायडू (जे० सी०-110506-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार भारत राम (जे० सी०-110507-के०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार मुधा चन्द यादव (जे० सी०-110508-एम०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार भाग सिंह (जे० सी०-110509-पी०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार मंगत राम (जे० सी०-110510-के०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह चापड़ा (जे० सी०-110511-एम०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार विजय प्रकाश (जे० सी०-110512-पी०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जे० सी०-110514-ए०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार शोम सिंह (जे० सी०-110516-एल०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार तिलक राज (जे० सी०-110517-एन०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार अजित सिंह (जे० सी०-110518-डब्ल्यू०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार हरि किल (जे० सी०-110520-एन०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार सी० पी० नरेन्द्रन नायर (जे० सी०-110521-डब्ल्यू०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जे० सी०-110522-वाई०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार गोपाल कृष्ण पिल्लै (जे० सी०-110524-के०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-115239-पी०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार महीपाल सिंह (जे० सी०-115241-एम०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह वर्मा (जे० सी०-115242-पी०)--01 नवम्बर 1984।

[सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार बरगिस थोमस पालीकर (जे० सी०-90623-एच०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार कुंकूमथ गंगाधरन (जे० सी०-90624-एल०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार मनकूल सिंह (जे० सी०-90645-एन०)--01 अक्टूबर 1984।

सूबेदार स्टोर कीपर टैक्निकल के रैंक में

नायब सूबेदार परमा नंद गौतम (जे० सी०-110714-डब्ल्यू०)--01 जनवरी 1984।

नायब सूबेदार प्रताप सिंह मनकोटि (जे० सी०-110719-पी०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी०-110720-के०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार शिव सिंह गोसेन (जे० सी०-110721-एम०)--01 नवम्बर 1984।

सूबेदार ड्राईवर (एम० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार पिलमरी तरसिमा शास्त्री (जे० सी०-115150-एच०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार लाल सिंह चौहान (जे० सी०-115153-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार घुरा राम (जे० सी०-115154-वाई०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-80364-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार कस्तूरी लाल (जे० सी०-80369-डब्ल्यू०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार निवहति चोरपाडे (जे० सी०-84909-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार कन्हो सिंह (जे० सी०-96393-डब्ल्यू०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार सचिवानन्द प्रसाद श्रीवास्तव (जे० सी०-115146-ए०)--01 नवम्बर 1984।

सूबेदार रिक्तवरी मेकेनिकल के रैंक में

नायब सूबेदार उदय राज सिंह (जे० सी०-115027-के०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार रामेश्वर सिंह (जे० सी०-115028-एस०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-115029-एफ०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार सुरता राम (जे० सी०-115030-के०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार किरपाल देव (जे० सी०-115031-एस०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार शंकर शर्मा (जे० सी०-115032-पी०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार शिवाजी शिन्दे (जे० सी०-115033-एक्स०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार शीख सरदार असी (जे० सी०-115034-ए०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार हंस राज (जे० सी०-115035-एच०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार अजित कुमार विश्वास (जे० सी०-115036-एल०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार सोपन यादव (जे० सी०-116752-एच०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार भगवान दास (जे० सी०-116753-एन०)--01 अक्टूबर 1984।

नायब सूबेदार गुलशन लाल (जे० सी०-116754-एन०)--01 नवम्बर 1984।

सूबेदार रिक्तवरी मेकेनिकल के रैंक में

नायब सूबेदार वी० चाको (जे० सी०-116755-डब्ल्यू०)--01 नवम्बर 1984।

नायब सूबेदार दुर्गा पान्डे (जे० सी०-116757-एच०)--01 नवम्बर 1984।

एस० सी० वरमानी, अवर सचिव

(सेना विभाग)

नियमित सेना (ए० ओ० सी०)

सं० 564, दिनांक 19 फरवरी, 1985—सिविलियन स्टाफ अधिकारी (आयुद्ध) श्री राज कुमार दिनांक 31 जनवरी 1985 (अपराह्न) से सेवा से निवृत्त हुए।

वी० के० श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं० 565, दिनांक 12 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की अधिवर्ध आयु प्राप्त करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्पाई आयुध

कार्यकारी कर्नल ए० मंडल (एम० आर०-1706), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-1 अक्टूबर 84 (पूर्वाह्न) से।

सं० 566, दिनांक 12 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनकी अपनी प्रार्थना पर समयपूर्व सेना से निवृत्त होने तथा उनका स्थानान्तरण अफसरों की नियमित रिजर्व (श्रेणी "एक्स") में करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्पाई आयुध

ले० कर्नल वी० के० मुखर्जी (एम० आर०-1952) सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-13-03-84 (पूर्वाह्न) से।

ले० कर्नल देव प्रकाश तनेजा (एम० आर०-1530), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-7 जून 84 (पूर्वाह्न) से।

ले० कर्नल ए० गोपालकृष्णन् (एम० आर०-1371), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-11 जून 84 (पूर्वाह्न) से।

ले० कर्नल एस० के० पाराशर (एम० आर०-1955), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-29 जुलाई 84 (पूर्वाह्न) से।

ले० कर्नल (श्रीमती) सविता दत्ता (एम० आर०-1897), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-30 जुलाई 1984 (पूर्वाह्न) से।

ले० कर्नल जी० एस० सलूजा (एम० आर०-1655), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-5 अगस्त 84 (पूर्वाह्न) से।

ले० कर्नल टी० ए० अब्दुल कादर (एम० आर०-1973), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-28 अगस्त 84 (अपराह्न) से।

बि० कमा० बी० चन्द (एम० आर०-2214) (8521-एफ०), सैनिक डाक्टर कोर/पी० सी०-1-9-84 (पूर्वाह्न)।

वी० के० श्रीवास्तव, अवर सचिव

सं० 567, दिनांक 23 फरवरी, 85—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे लिखित स्थितियों से उनकी निवृत्ति की स्थापना स्वीकृत करके पर बल सेना सेवा से निवृत्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्पाई कमीशन

ले० कर्नल पी० सी० साहनी, वी० आर० सी० (आई० सी०-6797-ए०) बिहार-31 अक्टूबर 83 (अपराह्न)।

ले० कर्नल जे० ए० भाटिया (आई० सी०-7127-एल०) आटिलरी 31 जनवरी 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल बी० एस० भण्डारी (आई० सी०-7359-के०) गढ़ रोडफोर्स-31 मार्च 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल एस० एस० गिल (आई० सी०-7088-एक्स०) आटिलरी 31 मार्च 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी० एस०) जे० घोष (आई० सी०-7737-एक्स०)--ए० एस० सी०-31 मार्च 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी० एस०) ए० के० भौमिक (आई० सी०-7078-एन०) सिगनल-31 मार्च 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल टी० पी० नायर (आई० सी०-12514-के०) आटिलरी 30 अप्रैल 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल बी० एस० मेहरा (आई० सी०-6682-एम०) आटिलरी 30 अप्रैल 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल एस० सी० टण्डन (आई० सी०-6832-एक्स०) सिगनल, 30 अप्रैल 84 (अपराह्न)।

ले० कर्नल (टी० एस०) बी० ए० यादव (आई० सी०-7464-ए०), जी० आर०-30 अप्रैल 84 (अपराह्न)।



के० कर्नल बी० जे० बालनेरु (आई० सी०-20982-आई०)  
जाक राइफल-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

ले० कर्नल बी० जी० खटावकर (आई० सी०-21863-पी०)  
ए० एस० सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर ए० बी० डी० पिल्लै (आई० सी०-10463-एच०) ए०  
एस० सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर ग्राम प्रकाश लाम्था (आई० सी०-12334-एफ०) ए० एस०  
सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर गुरुवैद्य सिंह (आई० सी०-13362-ए०) बिहार-30 अप्रैल  
84 (अपराहृत)।

मेजर रम मिह (आई० सी०-18020-इन्फ्यू०) राजपूत-  
30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर गिरधर लाल (आई० सी०-18292-इन्फ्यू०) ए० एस०  
सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर ए० एस० रणधावा (आई० सी०-18710-ए०) ए० एस०  
सी० 30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

ले० कर्नल बी० जी० बागवतकर (आई० सी०-20169-इन्फ्यू०)-  
ए० एस० सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर बी० डी० देसाय (आई० सी०-20392-ए०) ए० श्री०  
सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर एस० पी० गांधी (आई० सी०-20394-एल०) ए० एस०  
सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर ए० पी० एस० नमिश्चियार (आई० सी०-20400-एफ०)  
ए० एस० सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर श्री राम (आई० सी०-22554-आई०) बिहार-30 अप्रैल  
84 (अपराहृत)।

मेजर कर्तार सिंह (एस० एल०-953-एच०) क्यू० एस०-30  
अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर आई० थॉमस (एस० एल०-1233-एल०) क्यू० एस०-30  
अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर गुरुवैद्य सिंह (एस० एस०-1400-एल०) इंजीनियर्स-30  
अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मेजर टी० एस० मेहर (एस० एल०-1474-एल०) क्यू० एस०-  
30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

कप्तान बी० एस० गन्धत (एस० एल०-1703-एल०) ए० एस०  
सी०-30 अप्रैल 84 (अपराहृत)।

मुक्तान महमूद, ले० कर्नल, महायुक्त सैनिक सचिव-7

नौसेना मुख्यालय

सं० 569, दिनांक 16 फरवरी, 1985--राष्ट्रपति, श्री ए० के०  
त्रिपाठी को समस्त नौसेना मुख्यालय सिविल सेवा में 01 फरवरी 1985  
में महायुक्त सिविलियन स्टाफ अधिकारी (प्रोबेशनर) के रूप में नियुक्त  
करते हैं।

एच० एन० सिंह, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

(नौसेना शाखा)

सं० 570, दिनांक 23 फरवरी, 85--राष्ट्रपति, श्री एच० एस०  
बाजवा, सहायक मुख्य सिविल जल सर्वेक्षकीय अधिकारी का दिनांक  
22 जनवरी 85 (पूर्वाहृत) से स्थानापन्न मुख्य सिविल जल सर्वेक्षकीय  
अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० 571, दिनांक 25 फरवरी, 1985--राष्ट्रपति निम्नलिखित  
वरिष्ठ डिजाईन अधिकारी, ग्रेड-II (इंजीनियरिंग) को दिनांक 31  
दिसम्बर 84 (पूर्वाहृत) से स्थानापन्न वरिष्ठ डिजाईन अधिकारी, ग्रेड-I  
(इंजीनियरिंग) नियुक्त करते हैं:--

(क) श्री आर० बी० देवाहीय

(ख) श्री एस० ए० पीलेस

एस० सी० जुनेजा, अवर सचिव

सं० 572, दिनांक 27 फरवरी, 85--राष्ट्रपति, निम्नलिखित  
पदोन्नतियां, उनके नामों के आगे दी गई तारीखों से, करते हैं:--

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमीशन)

कमाण्डर (कार्यकारी कैप्टन) से कैप्टन के रैंक में

कार्यकारी शाखा

पी० झा, (00526-इन्फ्यू०), एस० सी० ग्रान्तव (00538-आई०),  
जे० एम० नेगी (60120-के०)--01-7-84। एस० बी० पुरोहित  
(60122-आर०) और एस० बी० कानिक (00542-एफ०)--01-1-1985।

इंजीनियरी शाखा

जे० मुन्शीया (40173-ए०), सी० पी० जार्ज (40174-बी०),  
आर० ताप (40175-एफ०) और शंकरजीत सिंह (40176-एच०)--  
01-1-85।

(विद्युत् शाखा)

के० बी० सूरी (50129-बी०) और बी० के० दत्त मजुमदार  
(50130-एफ०)--01-7-85।

शिक्षा शाखा

जी० एस० सेन (70052-एच०)--01-1-85।

सं० 573, दिनांक 25 फरवरी, 1985--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय  
के पत्र संख्या एस० पी०/0314/एन० एच० क्यू०/एस० 3198-डी०  
(एन०-2), दिनांक 31 अगस्त 78 द्वारा यथा मणोर्धित नौ सेना अनु-  
देश 32/67 के उपबन्ध एवं शक्तिपत्र संख्या एस० पी० /0314/एन०  
एच० क्यू०/1534/डी० (एन०-2), दिनांक 31 मार्च 80, मुख्य फाइल  
की खण्ड फाइल संख्या 0314/एन० एच० क्यू०/1390/ए० एस०/डी०  
(एन०-2), दिनांक 22 सितम्बर 83 और एस० पी० /0314/आई०/  
एन० एच० क्यू०/1402/ए० एस०/डी० (एन०-2), दिनांक 21 सितम्बर 84

सं० 568, दिनांक 1 मार्च, 1985--निम्नलिखित अफसर समरी  
ट्रायल के वण्डादेश अनुसार उनके नामों के सामने दी गई सेवा में वर्धित  
होता है:--

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

लेफ्टिनेंट अधिवक्ता कुमार (एस० एस०-30579) ई० एस० ई०  
रैंक और पूर्वता ग्रहण करते हैं, मानां स्थायी लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति  
की तिथि 28 फरवरी 83 है। --06 जुलाई 1984।

म० चाकी, ले० कर्नल, ए० एस० एन०-8

के अन्तर्गत, निम्नलिखित स्टाई पदोन्नतियां 01 अक्टूबर 84 से करते हैं:—

भारतीय नौसेना

(स्थायी कमीशन)

लेफ्टि. कमाण्डर (कार्यकारी कमाण्डर) (एस० डी०), से  
कमाण्डर (एस० डी०) के रैंक में

ए० के० बांस (एस० डी० सी०) (81902-आर०)।

मंथा सिंह (एस० डी० बी०) (83181-वार्ड०)।

यू० नायर (एस० डी० ए० बी०) (84567-वार्ड०)।

ए० सी० सूब (एस० डी० आर०) (87517-ए०)।

आर० एम० गौतम (एस० डी० पी०) (86822-वार्ड०)।

बी० आर० मैनन (एस० डी० ए० आर०) (88304-आर०)।

लेफ्टिनेंट (एस० डी०) से लेफ्टि. कमाण्डर (एस० डी०) के  
रैंक में

एस० एस० डैमा (एस० डी० जी०) (80077-टी०)।

पी० श्री० सैमुअल (एस० डी० जी०) (80078-डब्ल्यू०)।

प्रताप सिंह (एस० डी० टी० ए० एस०) (801270-बी०)।

लक्ष्मू सिंह (एस० डी० टी० ए० एम०) (81271-एच०)।

देव राज (एस० डी० टी० ए० एस०) (81272-एच०)।

एम० एस० रावत (एस० डी० सी०) (81917-जड०)।

गुरनाम सिंह (एस० डी० सी०) (81918-ए०)।

के० पी० सिंह (एस० डी० सी०) (81919-बी०)।

के० एल० छुल्लर (एस० डी० सी०) (81920-एफ०)।

मीता राम (एस० डी० बी०) (83188-एन०)।

एस० टी० मली (एस० डी० बी०) (83189-आर०)।

पी० आर० कपूर (एस० डी० बी०) (83190-टी०)।

श्री० पी० बन्शी (एस० डी० रेगु०) (83923-एच०)।

पी० एस० राणा (एस० डी० रेगु०) (83924-के०)।

ज० एस० बाणवा (एस० डी० रेगु०) (83925-एन०)।

मेला सिंह (एस० डी० पी० टी०) (84307-एफ०)।

के० पी० सिंह (एस० डी० ए० बी०) (84578-वार्ड०)।

डी० आर० राव (एस० डी० ए० बी०) (84579-जेड०)।

आरुमा राम (एस० डी० एस०) (88536-टी०)।

रूप चन्द (एस० डी० डब्ल्यू०) (89035-ए०)।

राम वत्त (एस० डी० सी० ए०) (89507-जेड०)।

हुरमोहिन्दर सिंह (एस० डी० एम० ई०) (85054-बी०)।

पी० एम० खन्ना (एस० डी० एम० ई०) (85055-एफ०)।

श्रीकार चन्द (एस० डी० एम० ई०) (85056-एच०)।

लेफ्टिनेंट (एस० डी०) से लेफ्टि. कमाण्डर (एस० डी०) के  
रैंक में

एस० एस० श्रीमा (एस० डी० एम० ई०) (85052-जेड०)।

एस० एस० नांगरा (एस० डी० एम० ई०) (85057-के०)।

एस० जी० के० पिल्लै (एस० डी० एम० ई०) (85058-एन०)।

पी० पी० जे० बी० पाणिकर (एस० डी० एम० ई०) (85059-  
आर०)।

के० डी० मौजुमदार (एस० डी० ए० ई०) (86017-टी०)।

डी० आर० शर्मा (एस० डी० ए० ई०) (86018-डब्ल्यू०)।

एम० आर० श्रीवास्तव (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86328-  
जेड०)।

ए० राधाकृष्ण (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86331-एफ०)।

एस० पी० कपूर (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86332-एच०)।

देम राज (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86333-के०)।

जी० मंडल (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86334-एन०)।

वी० वी० एम० नायडू (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86335-  
आर०)।

जे० एम० पिलानिया (एस० डी० पी०) (86841-आर०)।

एस० बधवानी (एस० डी० पी०) (86842-टी०)।

एम० एम० जमशाल (एस० डी० पी०) (86843-डब्ल्यू०)।

ए० एस० गह्निया (एस० डी० पी०) (86844-वार्ड०)।

पी० एस० खिन्दा (एस० डी० पी०) (86845-जेड०)।

आर० के० तंवर (एस० डी० पी०) (86846-ए०)।

एच० पी० शर्मा (एस० डी० पी०) (86847-बी०)।

एस० पी० रत्ती (एस० डी० पी०) (86848-एफ०)।

अचतार सिंह (एस० डी० पी०) (86852-आर०)।

त्रिलोक सिंह (एस० डी० पी०) (86853-टी०)।

वी० के० मेहता (एस० डी० पी०) (86854-डब्ल्यू०)।

बन्शीधर सिंह (एस० डी० पी०) (86855-वार्ड०)।

के० एल० शर्मा (एस० डी० आर०) (87535-टी०)।

जे० वर्गीज (एस० डी० आर०) (87536-डब्ल्यू०)।

जंगवीश चन्द्र (एस० डी० आर०) (87538-जेड०)।

एम० एस० भतवाल (एस० डी० आर०) (87539-ए०)।

बी० के० मदेश (एस० डी० एम०) (89721-के०)।

एम० एम० रहमान (एस० डी० एम० ई०) (85053-ए०)।

सब-लेफ्टिनेंट (एस० डी०) से लेफ्टिनेंट के रैंक में

धर्म वीर (एस० डी० जी०) (80119-एच०)।

सी० मेगामेघन (एस० डी० टी० ए० एस०) (81292-बी०)।

के० पी० मीथ्य (एस० डी० टी० ए० एस०) (81293-आर०)।

मन्मथन सिंह (एस० डी० टी० ए० एस०) (81294-एच०)।

डी० डी० जैन (एस० डी० टी० ए० एस०) (81295-के०)।

ए० एस० सैन (एस० डी० टी० ए० एस०) (81296-एन०)।

एम० शौख (एस० डी० बी०) (83201-टी०)।

सी० एल० शा (एस० डी० ए०) (83942-ए०)।

दर्शन सिंह (एस० डी० ए० बी०) (84601-जेड०)।

एम० एम० यादव (एस० डी० ए० बी०) (84602-ए०)।

टी० चन्द्रशेखरन (एस० डी० डब्ल्यू०) (89065-एन०)।

आर० डी० सिंह (एस० डी० डब्ल्यू०) (89066-वार्ड०)।

गुरुचरण सिंह (एस० डी० सी० ए०) (89511-एच०)।

ए० एस० जेतियर (एस० डी० एम० ई०) (85085-जेड०)।

सी० टी० जोसफ (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86348-डब्ल्यू०)।

पाम्पपति (एस० डी० एम० डब्ल्यू०) (86347-टी०)।

जी० डी० सच्चदेवा (एस० डी० पी०) (86874-आर०)।

रंजीत सिंह (एस० डी० पी०) (86875-डी०)।

आ० एस० नारंग (एस० डी० आर०) (87572-ए०)।

पी० पी० टी० जॉन (एस० डी० ए० आर०) (88317-डब्ल्यू०)।

कश्मीर सिंह (एस० डी० एम०) (89740-बी०)।

जे० निर (एस० बी० एस०) (88566-के०)।  
जे० प्रसाद (एस० बी० एस०) (88567-एन०)।  
अंजुला नायक, कामिक उपनिदेशक (ओ० ए० एंड्र प्रार०)

सं० 574, दिनांक 28 फरवरी 85—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से करते हैं:—

भारतीय नौसेना  
(स्थाई कमीशन)

लेफ्टि० से लेफ्टि० कमांडर के रैंक में  
कार्यकारी शाखा

राजेंद्र सिंह (01427-टी०)--01-7-84।  
के० एस० सिंह (01426-प्रार०)--01-7-84।  
बी० एस० थापा (01431-ए०)--01-7-84।  
के० पी० एम० एम० नायर (01447-एन०)--01-7-84।  
एस० एम० गिल (01445-एन०)--01-7-84।  
जी० एन० मन्वरेव (02363-इन्फ्यू०)--08-7-84।  
नरेश कुमार (01409-ए०)--16-7-84।  
एन० के० भारद्वाज (01388-बी०)--16-7-84।  
प्रार० साहनी (01450-इन्फ्यू०)--16-7-84।  
टी० हरि राम (01506-आई०)--16-7-84।  
के० नागयणन (60233-टी०)--29-7-84।  
डी० डी० नायक (01413-के०)--16-8-84।  
एस० पी० एस० दुग्गल (01464-ए०)--16-8-84।  
प्रार० चौधरी (01444-एफ०)--16-8-84।  
एन० के० झा (02374-इन्फ्यू०)--23-8-84।  
राजीव कोशल (01403-एन०)--01-9-84।  
प्रार० जार्ज (01453-ए०)--01-9-84।  
पी० ए० नारायण (01466-एफ०)--01-9-84।  
अनिल कुमार (01433-एफ०)--16-9-84।  
जे० ए० खुराओ (01430-जेड०)--16-9-84।  
के० सी० सूब (01429-आई०)--16-9-84।  
एफ० ए० मोदीयूज (01448-प्रार०)--16-9-84।  
ए० प्रार० बी० डिसूजा (02375-आई०)--23-9-84।

इंजीनियरी शाखा

बी० के० चौधरी (40495-एच०)--09-7-84।  
प्रार० पी० एम० जॉसन (40501-आई०)--24-7-84।  
प्रार० सी० सक्सेना (40510-टी०)--28-7-84।  
एन० के० शर्मा (40547-ए०)--02-8-84।  
ए० वासन (40509-प्रार०)--13-8-84।  
ए० के० क्षत्रीय (40496-के०)--24-8-84।  
एस० मल्होत्रा (40497-एन०)--24-8-84।  
ए० ए० बांसर (40540-के०)--27-8-84।  
वी० के० पुरी (40514-ए०)--28-8-84।  
के० पी० राघवन (40530-एन०)--14-9-84।  
बी० बखशी (40612-जेड०)--16-9-84।  
एस० के० मुखर्जी (40517-एच०)--25-9-84।

नरेंद्र सिंह (40584-बी०)--25-9-84।  
जे० जे० प्रार० डेविड (40518-के०)--29-9-84।  
जी० बी० अग्रवाल (40531-प्रार०)--29-9-84।

विद्युत् शाखा

एस० सुयंगी (50461-एच०)--14-7-84।  
प्रार० सीधोनि (50479-जेड०)--16-7-84।  
एन० एम० बिजूर (50465-टी०)--29-7-84।  
मंगार सिंह (50553-टी०)--30-7-84।  
ए० के० गर्ग (50443-टी०)--01-8-84।  
बी० के० भारद्वाज (50480-ए०)--08-8-84।  
एस० एम० एम० शहजादा (50429-के०)--09-8-84।  
प्रार० वेणुगोपाल (50473-के०)--14-8-84।  
ए० पाण्डे (50415-बी०)--16-8-84।  
बी० के० बरुआ (50454-टी०)--16-8-84।  
बी० एन० कौल (50469-ए०)--29-8-84।  
एन० बी० रमैया (50486-प्रार०)--08-9-84।  
इन्द्रजीत सिंह (50434-आई०)--09-9-84।  
अवतार सिंह (50440-के०)--11-9-84।  
पी० शुक्ल (50478-आई०)--13-9-84।  
ए० सी० धानन्द (50458-ए०)--14-9-84।  
प्रभात रमन (50456-आई०)--16-9-84।  
डी० जी० चिरानिया (50437-बी०)--26-9-84।  
पी० अनन्तकृष्णन, कामिक उपनिदेशक (ओ० ए० एंड्र प्रार०)

सं० 575, दिनांक 22 फरवरी 1985—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० ओ० एफ०/3482/82/बी०/ई०/एस० एस० सी०/एन० एच० क्यू०/1673-यू० एस०/बी० (एन०-2) दिनांक 19 दिसम्बर 1984 और ओ० एफ०/2024/यू० पी० ई०/एन० एच० क्यू०/1015-यू० एस०/बी० (एन०-2) दिनांक 28 जुलाई 1984 के अधीन सीधी भर्ती योजना के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरी/विद्युत् शाखा में, उनके नामों के सामने दी गई तिथियों से निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:—

कार्यकारी सब-लेफ्टि० के रैंक में (परखाधीन)

सीधी भर्ती (इंजीनियरी शाखा)

नाम	निजी सं०	कमीशन की किस्म	भर्ती की तारीख
ए० बी० मोहनन	40943	एस० एस० सी०	03 मई 82
आई० पी० दीक्षित	40944-बी०	एस० एस० सी०	—
के० एस० भादुरी	40945-एफ०	एस० एस० सी०	—
एस० ए० गोविन्द	40948-एन०	एस० एस० सी०	—
लाध			
एस० जी०	40949-प्रार०	एस० एस० सी०	—
गजानन			
बी० के० शर्मा	40950-टी०	एस० एस० सी०	—
रंजीत लालिरी	40894-प्रार०	पी० सी०	18 फर० 81
हरिन्दर पाल	40989-एफ०	पी० सी०	31 जन० 83
सिंह			
शक्ति मोहन	41034-एच०	एस० एस० सी०	06 फर० 84
प्रार०			
श्याम सुन्दर पी०	50842-जेड०	एस० एस० सी०	06 फर० 84
उमेश एस०	50844-बी०	एस० एस० सी०	—

सं० 576, दिनांक 22 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय पत्र सं० श्री० एफ०/यू० पी० इ०/एन० एच० क्यू०/1015-यू० एम०/डी० (एच०-2) दिनांक 28 जुलाई 84 और श्री० एफ०/1701/84/2/1801/84/2/डी० इ०/एन० एच० क्यू०/96-यू० एम०/डी० (एन०-2), दिनांक 17 फरवरी 85 के अन्तर्गत, सीधी भर्ती योजना के अधीन, भारतीय नौसेना की इंजीनियरी/विद्युत् शाखाओं में, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ, उनके नामों के आगे दी गई तारीखों से करते हैं:-

कार्यकारी मज लेफ्टि० के रैंक में (परखाधीन)  
सीधी भर्ती योजना (इंजीनियरी शाखा)

नाम	निजी सं०	कमीशन की तिथि	भर्ती की तारीख
एसें वन्डोपाध्याय	40909-जेड०	स्थायी कमीशन	17 अगस्त 81
विजय कुमार	40997-जेड०	"	01 अगस्त 83

सीधी भर्ती योजना (विद्युत् शाखा)

राजकुमार डुडेजा	50859-एन०	एम० एम० सी०	06 अगस्त 84
सी० श्रीनिवासन	50860-आर०	स्थायी कमीशन	06 अगस्त 84

एम० पी० तनेजा  
कर्माडर  
उपनिवेशक कार्मिक संवायें (आर० एण्ड आर०)

वायु शाखा

सं० 577, दिनांक 19 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, भा० वा० से० की उड़ान (पा०) शाखा के निम्नलिखित पायलट अफसरों को जिन्होंने लड़ाकू प्रशिक्षण परिवहन कन्वर्जन कोर्स/हेलीकाप्टर कन्वर्जन कोर्स सेमिस्टर 1, स्टेज III में व्यावहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, 28 मई 83 से अन्तिम कमीशन और विंग की पुष्टि करने हैं और उन्हें उनके नामों के आगे लिखी तारीखों से स्थायी कमीशन (12 मास की परखाधीन अवधि पर) प्रदान करते हैं, लेकिन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, के पत्र संख्या वा० से० ए०/एस०/18731/प्रशिक्षण/1781/यू० एम०/डी० (वायु-IV) तारीख 27 अक्टूबर 79 तथा वा० से० म० एम० 18731 में-में-प्रशिक्षण/122/डी० (एयर-IV) तारीख 16 जनवरी 84 के उप पैरा 1 (क) के उपबंधों के अधीन (उड़ान वेतन के अतिरिक्त), पदोन्नति और पेंशन के लिए उनकी वरिष्ठता 28 मई 83 से होगी। निम्नलिखित अफसरों की उड़ान वेतन के लिए सेवा उनके लड़ाकू प्रशिक्षण/परिवहन कन्वर्जन कोर्स/हेलीकाप्टर कन्वर्जन कोर्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करने की वास्तविक तारीख से गिनी जाएगी जैसा उनके नामों के आगे बताया गया है:-

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

आर० श्रीवास्तव (17133) एन० हरीश (17135), आर० के० डकबर्ध (17136) तथा आर० राई (17137)—14 दिसम्बर 83 से।

टी० एस० सरीन (17138)—10 दिसम्बर 83 से।

ए० शर्मा (17139)—14 दिसम्बर 83 से।

सी० ए० के० रेड्डी (17140)—30 दिसम्बर 83 से।

आर० होंगा (17141) तथा एस० घोष (17142)—14 दिसम्बर 83 से।

आर० पुन्वीर (17143)—10 दिसम्बर 83 से।

आर० बिन्दा (17144)—30 दिसम्बर 83 से।

ए० डोंगा (17145)—10 दिसम्बर 83 से।

एस० गंगवाननी (17146)—30 दिसम्बर 83 से।

बी० भ्रादित्य (17147)—14 दिसम्बर 83 से।

बी० प्रकाश (17149)—10 दिसम्बर 83 से।

ए० पंचमल (17150)—14 दिसम्बर 83 से।

डी० के० शर्मा (17151)—30 दिसम्बर 83 से।

पी० बैनर्जी 15/152 तथा सी० आर० बेंकटरामन (17153)—14 दिसम्बर 83 से।

डी० के० शर्मा (17154)—10 दिसम्बर 83 से।

आर० के० शर्मा (17155)—30 दिसम्बर 83 से।

एन० एस० जयनाल (17156) तथा एस० एस० मेंखोवालिया (17157)—14 दिसम्बर 83 से।

ए० आर० आत्मकुरि (17158)—30 दिसम्बर 83 से।

एस० बंशोपाध्याय (17159) तथा ए० तिवारी (17160)—10 दिसम्बर 83 से।

के० राधेन्द्र (17161)—30 दिसम्बर 83 से।

के० के० प्रधान (17162)—10 दिसम्बर 83 से।

एस० कृष्णन (17163) तथा एस० मरकार (17164)—14 दिसम्बर 83 से।

जे० बी० पाल (17165), बी० एम० यादव (17166) तथा जे० एम्स० इकराहल (17167)—30 दिसम्बर 83 से।

टी० राजीवन (17168)—14 दिसम्बर 83 से।

पी० वी० देशपाण्डे (17169)—10 दिसम्बर 83 से।

एम० के० पी० एम० पिल्लै (17170) तथा जे० चौधरी (17171)—30 दिसम्बर 1983 से।

पी० एस० राव (17172)—10 दिसम्बर 83 से।

पी० आर० नवलकर (17173)—14 दिसम्बर 83 से।

डी० गुप्ता (17174)—10 दिसम्बर 83 से।

बी० पररा (17175)—30 दिसम्बर 83 से।

ए० थापलियाल (17176)—14 दिसम्बर 83 से।

जे० ई० स्टीफन (17177)—10 दिसम्बर 83 से।

आर० के० भाटिया (17179) तथा आर० के० त्रिपाठी (17180)—30 दिसम्बर 83 से।

एम० के० बोरबोरा (17181)—14 दिसम्बर 83 से।

जे० डी० पिल्लै (17182)—30 दिसम्बर 83 से।

ए० मरसेता (17183)—14 दिसम्बर 83 से।

सं० 578, दिनांक 19 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसरों की, जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था पुष्टि करते हैं और उन्हें उनके नाम के आगे लिखी तारीख से फ्लाइट अफसर के मूल रैंक में पदोन्नत भी करते हैं:-

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

रैंक	नाम	नंबर	पुष्टि की तारीख	पदोन्नति की तारीख
1	2	3	4	5
पायलट अफसर				
	आर० श्रीवास्तव	17133	14 दिसम्बर 83	28-5-81
	एन० हरीश	17135	"	"
	आर० जे० डकबर्ध	17136	"	"
	आर० राय	17137	"	"
	टी० एस० सरीन	17138	10 दिसम्बर 83	"

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
पायलट भ्रफसर	ए० शर्मा	17139	14 दिसम्बर 83	28-5-84	पायलट भ्रफसर	बी० एस० यादव	17166	30 दिसम्बर 83	28-5-84
"	सी० ए० क० श्रेणी	17140	30 दिसम्बर 83	"	"	जे० एक्स० इमराहल	17167	30 दिसम्बर 83	"
"	भार० हीरा	17141	14 दिसम्बर 83	"	"	टी० राजाखन	17168	14 दिसम्बर 83	"
"	एस० घोष	17142	14 दिसम्बर 83	"	"	पी० वी० देशपांडे	17169	10 दिसम्बर 83	"
"	भार० पुनदीर	17143	10 दिसम्बर 83	"	"	एस० के० पी० एस० पिल्ले	17170	30 दिसम्बर 83	"
"	भार० बिन्हा	17144	30 दिसम्बर 83	"	"	जे० चौधरी	17171	30 दिसम्बर 83	"
"	ए० शंभुना	17145	10 दिसम्बर 83	"	"	पी० एस० राव	17172	10 दिसम्बर 83	"
"	एस० गंगवानी	17146	30 दिसम्बर 83	"	"	पी० भार० नवलकर	17173	14 दिसम्बर 83	"
"	श्री अविद्य	17147	11 दिसम्बर 83	"	"	डॉ० गुप्ता	17174	10 दिसम्बर 83	"
"	बी० प्रकाश	17149	10 दिसम्बर 83	"	"	ए० थ पलियाल	17176	14 दिसम्बर 83	"
"	ए० पेरुमल	17150	14 दिसम्बर 83	"	"	जे० ई० स्टीफन	17177	10 दिसम्बर 83	"
"	डी० के० शर्मा	17151	30 दिसम्बर 83	"	"	भार० के० भाटिया	17179	30 दिसम्बर 83	"
"	पी० बैनर्जी	17152	14 दिसम्बर 83	"	"	भार० के० त्रिपाठी	17180	30 दिसम्बर 83	"
"	सी० भार० थकटरामन	17153	14 दिसम्बर 83	"	"	एस० के० बोरबोरा	17181	14 दिसम्बर 83	"
"	डी० के० शर्मा	17154	10 दिसम्बर 83	"	"	जे० डी० पिल्ल	17182	30 दिसम्बर 83	"
"	भार० के० शर्मा	17155	30 दिसम्बर 83	"	"	ए० सक्सेना	17183	14 दिसम्बर 83	"
"	एन. एस० जामवल	17156	14 दिसम्बर 83	28-5-84	सं० 579, दिनांक 16 फरवरी, 1985—राष्ट्रपति, निम्नलिखित मूल पदोन्नतियां करते हैं:—				
"	एस० एस०	17157	14 दिसम्बर 83	"	भारतीय वायु सेना उड़ान (पी०) शाखा				
"	मेखोवालिया				फ्लाइट भ्रफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रूप में				
"	एस० भार० आर्मी- कुरी	17158	30 दिसम्बर 83	"	एच० एस० मंडल (15701)—15 जून 84				
"	एस० बंधोपाध्याय	17159	10 दिसम्बर 83	"	परिवारिकी शाखा				
"	ए० तिवारी	17160	10 दिसम्बर 83	"	फ्लाइट भ्रफसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट के मूल रूप में				
"	के० राघवेन्द्र	17161	30 दिसम्बर 83	"	पी० लाल (बी० सी०—15164)—24 दिसम्बर 84				
"	ए० के० प्रधान	17162	10 दिसम्बर 83	"	समीर मित्रा, स्क्वाड्रन लीडर, महा० निदेश का आक-3(डी)				
"	एस० ज्ञान्	17163	14 दिसम्बर 83	"					
"	एस० सरकार	17164	14 दिसम्बर 83	"					
"	जे० वी० पाम	17165	30 दिसम्बर 83	"					

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd March 1985

No. 539, dated 2nd March, 1985.—The President is pleased to appoint Vice Admiral I T S Khurana (00072-N) as Director General Coast Guard with effect from 15 February, 1985 (FN) until further orders.

T. K. BANERJI, Jt. Secy.

No. 540, dated 26th Feb. 85.—The President is pleased to appoint Lt. Col. J. K. Nangpal (IC-16105), Engrs on transfer from the Directorate General of Inspection as Liaison Officer in the Department of Defence Production & Supplies, Ministry

No. 542, dated 15th Feb. 85.—The President is pleased to appoint the following permanent Assistant(s) of the CSS cadre of the Ministry of Defence as Section Officers on *ad-hoc* basis in the Ministry for the period(s) mentioned against each or till regular officers are available, whichever is earlier :

S. No.	Name	From	To
1.	Shri N. N. Sharma	1-2-1985 (with one day's break on 28-3-1985)	31-3-1985
2.	Smt. Shakuntla Jain	1-2-1985	31-3-1985
3.	Shri M. L. Vohra	1-2-1985	31-3-1985
4.	Shri R.N. Ray	1-2-1985 (with one day's break on 30-3-1985)	31-3-1985
5.	Smt. M. Venkataraman	1-2-1985 (with one day's break on 13-2-1985)	31-3-1985
6.	Shri M.V. Mangtani	1-2-1985	28-2-1985

of Defence, with effect from the forenoon of the 20th February, 1985.

No. 541, dated 4th Feb. 85.—On completion of their training at the Institute of Secretarial Training & Management, Department of Personnel & AR, Ministry of Home Affairs, the following Section Officers (Probationers) of the CSS cadre of the Ministry of Defence, assumed charge of the duties of Section Officers in the Ministry, on the forenoon of the 1st February, 1985 :

1. Dr. A. R. Goyal
2. Shri V. K. Samnotra
3. Kum. Divya
4. Shri K. L. Sharma

No. 543, dated 22nd Feb., 85.—The President is pleased to permit Shri M. C. Seth, permanent Section Officer of CSS cadre working as Desk Officer, Ministry of Defence, to retire voluntarily from service under Rule 48A of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972, with effect from the afternoon of 28th February, 1985.

L. N. Mehta, Under Secy.

**DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION**

No. 544, dated 22nd Feb., 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE**

Shri S. S. Murthy, Scientist 'E', Defence Scientific Information and Documentation Centre, Delhi to be Officiating Scientist 'F' in the same centre with effect from 8-2-85 (FN).

Dr. N. K. Jaiswal, Scientist 'E' Institute of Systems Studies and Analysis, Delhi to be Officiating Scientist 'F' in the same Institute with effect from 8-2-85 (FN).

Shri N. Bandyopadhyay, Scientist 'E', Directorate of Planning & Resource Management, R&D Organisation, New Delhi to be Officiating Scientist 'F' in the same Directorate with effect from 8-2-1985 (FN).

K. PAPA, Assistant Director (Pers)

**NATIONAL CADET CORPS**

No. 545, dated 25th Feb., 1985.—The undermentioned is granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and is appointed as Honorary Colonel Commandant N.C.C. for the period of his appointment as Director of Indian Institute of Technology, Kharagpur.

Prof. Gitindra Sajan Sanyal, 16 Aug 83  
Director,  
Indian Institute of Technology,  
Kharagpur.

RAVI DHINGRA, Dy. Secy. (Trg & Cer)

**DIE. GEN. N.C.C.**

No. 546, dated 22nd Feb., 1985.—The President is pleased to appoint the undermentioned permanent Stenographers Grade 'C' as offg. Stenographers Grade 'B' (SPA) in the AFHQ Stenographers' Service w.e.f. 13th Feb 1985 (F/N) until further orders :

Sh. Madan Gopal Bhalla  
Sh. Sikander Singh

No. 547, dated 22nd Feb., 1985.—The President is pleased to appoint Shri P. N. SIKKA, perm. Stenographer Gde 'C' as Stenographer Gde 'B' (SPA) w.e.f. 21st February, 1985 (F/N) in the AFHQ Stenographers' Service until further orders.

**DIRECTORATE GENERAL OF INSPECTION**

No. 548, dated 23rd Feb., 1985.—The President is pleased to appoint Shri P. R. Subramanian, Permanent Stenographer Grade 'C' as Officiating Stenographer Grade 'B' (SPA) in the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service with effect from 13 Feb 85 (FN) until further orders.

**ARMY HEADQUARTERS  
GS BRANCH**

No. 549, dated 9th Feb., 1985.—The President is pleased to appoint Shri Suraj Bhan Rajpal, Permanent Stenographer Grade 'C' (P.A.) Air Headquarters to be Officiating Stenographer Grade 'B' (Senior Personal Assistant) w.e.f. 19 Feb

85 (FN) in Armed Forces Headquarters Stenographer Service until further orders.

No. 550, dated 25th Feb., 1985.—Shri Gauri Shanker, Assistant Civilian Staff Officer died on 13 Feb 85 and struck off strength of GS Branch from the same date.

**(MS BRANCH)**

No. 551, dated 25th Feb., 1985.—The President is pleased to appoint Shri M M I. Verma, Assistant, MS Branch to be officiating ACSO on local basis for the period from 16-5-84 to 23-7-84 *vice* Shri Behari Lal, ACSO proceeded on leave.

No. 552, dated 25th Feb., 1985.—The President is pleased to appoint the following Stenographers Grade C of MS Branch to the grade of officiating Stenographers Grade 'B' (SPAs) in the AFHQ Stenographers Service wef 13-2-85 until further orders :—

- (1) Shri S. B. Dandapani
- (2) Shri B. K. Gandhi

They are retained in MC Branch against existing vacancies.

**(QMG'S BRANCH)**

No. 553, dated 25th Feb., 1985.—Shri Chaman Lal, Assistant Civilian Staff Officer (Probationer) resigned from A.F.H.Q. Civil Service w.e.f. 15th February, 1985 (A/N).

S. N. SINGH, Dy. Chief, Admn. Officer

No. 554, dated 25th Feb., 1985.—The President is pleased to make the following appointments :—

**REGULAR ARMY**

**Permanent Commission (Special List)**

The undermentioned JCOs are granted Permanent Commission in the Special List of Quartermasters in the rank of Lieut under AI 85/74 with effect from 20 Jul 84 with seniority from 20 Jul 82 for purposes of pay only :—

- JC-79005X Sub Rup Singh (SL-3084K), JAK Rif.
- JC-83536M Sub Sangram Singh (SL-3085M), JAK Rif.
- JC-93501K Sub Chandra Ballabh Pandey (SL-3087X), Sigs.
- JC-85979M Sub Ravshinder Singh (SL-3086P), Punjab.
- JC-97931L Sub Niresh Kumar Singh (SL-3088A), Sigs.
- JC-102416L Sub Roshan Lal (SL-3089H), Sigs.
- JC-112895L Sub Khem Singh Mandhotra (SL-3092H), Dogra.
- JC-107372H Sub Gurbhajan Singh (SL-3090X), Sikh Regt.
- JC-111560F Nb Sub Harbans Singh (SL-3091A), Arty.
- Ex-4048601F Nb Sub Surendra Singh Chaudhari (SL-3093-L), Garh Rif.
- Ex-1244162L Nb Sub Mavuleti Sthanarayana Raju (SL-3100W), Arty.
- Ex-2862371Y Nb Sub Raj Vir Singh Rana (SL-3098K), Raj Rif.

The undermentioned NCOs are granted Permanent Commission in the Special List of Quartermasters in the rank of 2/Lieut under AI 85/74 with effect from 20 Jul 84 :—

- No. 2557637N CQMH N C Joseph (SL-3097F), AEC. Seniority Next below Lieut Raj Vir Singh Rana (SL-3098K), Raj Rif.
- No. 6290876M CQMH Harcharan Singh Khoker (SL-3096-Y), Sigs.
- No. 6303397M RQMH Jagannath Sharma (SL-3095W), Sigs.
- No. 6888037N Hav Balbir Singh (SL-3101Y), AOC.
- No. 4346263P Hav Ratan Mani Pradhan (SL-3107A), Assam Regt.
- No. 13731640X Hav Sat Paul (SL-3103K), Mech Inf.
- No. 6326040H Hav Balbir Singh (SL-3102F), Sigs.

- No. 7103348W Hav Purushothaman M (SL-3104M), EME.  
 No. 7107891F Hav Jangbir Singh Rawat (SL-3105P), EME.  
 No. 6317306H Hav Ananda Mohan Mazumdar (SL-3108-M), Sigs.  
 No. 1043145P Dfr Bachan Singh (SL-3106X), Armd Corps.  
 No. 2664476X CQMH Pratap Singh Shekhawat (SL-3099-M), Grenadiers.  
 No. 1241133L Hav Damodar Dass Chohan (SL-3111H), Arty.  
 No. 6321785M Hav Indar Pal Singh Gill (SL-3109L), Sigs.  
 No. 14217910W Nk Ponniah Rajendran (SL-3112L), Sigs.  
 No. 1299386L Nk Hoshiar Singh (SL-3110A), Arty.  
 No. 14204249K Nk Sudarshan Singh Parmar (SL-3113N), Sigs.  
 No. 1276600W L/Nk Gopal Krishnan Malyandi Pandidhar (SL-3114W), Arty.

The Undermentioned JCO is granted Permanent Commission in the Special List of Quartermaster in the rank of Lieut under AI 85/74 with effect from 04 Aug 84 with seniority from 04 Aug 82 for purposes of pay only :—

IC-NYA-EX-6296194X Nb Sub Ishwar Chand (SL-3094-N), Sigs.

Seniority next below 2/Lieut Gopal Krishnan Malyandi Pandidhar (SL-3114W), Arty.

SUBHASH CHANDER MALIK, Lt. Col.  
AMS 8

No. 555, dated 19th February, 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

*Col to Brig*

H. C. Joshi (MR-637) AMC/PC, 1-2-84 (with notional seniority without effect on pay and pension from 19-3-82).

**PERMANENT COMMISSION**

*Lt Col to be Col*

- A. Ghosh (MR-2136) AMC/PC, 1-4-83.  
 B. Sitaraman (MR-992) AMC/PC, 1-6-83.  
 S. Das (MR-1116) AMC/PC, 10-7-83.  
 H. L. Gulati (MR-1476) AMC/PC, 15-7-83.  
 P. Daw (MR-1741) AMC/PC, 20-7-83.  
 Narainjee (MR-941) AMC/PC, 23-10-83.  
 B. N. Ghose (MR-1715) AMC/PC, 11-4-84.

ALOK JAIN, Deputy Secy.

No. 556, dated 19th February 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

*Major to be Substantive Lt Col (by Time-Scale)*

- S. T. Range Gowd (IC 12773M), Engrs., 11th June 1984.  
 O. N. Karir (IC 11124P), Engrs., 17th Dec 1983.  
 V. Bajpai (IC 11597N), Int Corps, 7th June 1984.  
 K. S. Kanwal (IC 11228W), Inf, 2nd Aug 1984.

Lt Col R. S. JATRANA, Asstt. Military Secy.

No. 557, dated 28th February, 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

*Lts to be Capts*

Sandeep Kumar (IC 35468) Inf, P. S. Raj (IC 35469) Inf, A. Kundu (IC 35470) Armd Corp, B. Rawat (IC 35471) Inf, M. N. Bughani (IC 35472) Inf, S. K. Nayak (IC 35473) Armd Corp, M. M. Shukla (IC 35474) Inf, U. C. Shadia (IC 35475) Inf, Avtar Singh (IC 35476) Inf, J. S. Verma (IC 35477) Inf, D. S. Trehan (IC 35478) Armd Corp, B. S. Negi (IC 35479) Inf, Surinder Singh (IC 35480) Inf, R. Narayanan (IC 35481) Armd Corp, S. Kaushik (IC 35482) Engineers, Sanjeev Kumar (IC 35483) Inf, N. V. Mohandasani (IC 35484) Inf, R. Talwar (IC 35485) Armd Corp, S. C. Rangi (IC 35486) Inf, N. P. S. Hira (IC 35487) Inf, R. Gopalakrishnan (IC 35488) Arty, P. S. Badal (IC 35489) Inf, N. P. Murlidharan (IC 35490) Signals, P. S. Mehl (IC 35491) ASC, A. R. Patil (IC 35492) Inf, K. Samir (IC 35493) Signals, S. Saha (IC 35494) Inf, N. Mehra (IC 35495) Inf, S. N. Yadav (IC 35496) Artillery, J. S. Sura (IC 35497) Artillery, 31st Jul 1984.

Ujjagar Singh (IC 35528) Artillery, T. Samson (IC 35529) Artillery, P. K. Tamang (IC 35531) Inf, G. S. Reen (IC 35532) Artillery, P. Bakshi (IC 35533) Inf, C. Vijay (IC 35534) Artillery, J. L. Todkar (IC 35535) Inf, A. K. N. Sreedharan (IC 35536) Inf, G. Vardharajulu (IC 35537) Artillery, N. Bali (IC 35538) Inf, O. P. Yadav (IC 35539) A.O.C., I. S. Bains (IC 35540) Inf, V. K. Pathak (IC 35541) Artillery, B. B. Gurung (IC 35542) Inf, C. S. Bisht (IC 35544) Inf, R. Thathiah (IC 35545) Artillery, R. P. Naikavde (IC 35546) Inf, J. S. Dhillon (IC 35547) A.S.C., S. K. Samantray (IC 35548) Artillery, Jaipal Singh (IC 35549) Artillery, S. Shukla (IC 35550) Armoured Corp, A. K. Yadav (IC 35552) Artillery, S. Sharma (IC 35553) Inf, Ravinder Singh (IC 35554) Artillery, N. Kalia (IC 35555) Inf, I. S. Sandhu (IC 35556) A.O.C., R. Jetley (IC 35557) Inf, H. Bhanot (IC 35559) E.M.E., J. Ghosal (IC 35560) Inf, S. Sharma (IC 35561) Signals, 31st Jul 1984.

Dilip Kumar (IC 35562) Artillery, B. K. Jain (IC 35563) Inf, Balwan Singh (IC 35564) Inf, K. S. N. Sukumaran (IC 35565) Artillery, M. J. Mathew (IC 35566) Artillery, A. W. Khan (IC 35567) Inf, K. R. Singh (IC 35568) A.O.C., Ajit Singh (IC 35569) Armd Corp, V. Swaminath (IC 35571) F.M.E., R. S. Nirban (IC 35572) Inf, J. S. Gill (IC 35573) Artillery, P. C. Katoch (IC 35574) Artillery, S. K. Yadav (IC 35575) Armd Corp, A. S. Goet (IC 35576) Inf, S. Kailat (IC 35577) Artillery, D. Binda (IC 35578) Inf, Satish Chander (IC 35579) Inf, K. K. V. Shanbhag (IC 35580) Inf, C. Prakash (IC 35581) Artillery, P. S. Sandhu (IC 35582) Inf, Baljit Singh (IC 35583) A.O.C., G. K. Gujjala (IC 35584) Inf, Jodish Singh (IC 35585) Inf, Bhupinder Singh (IC 35586) Inf, Beant Singh (IC 35587) Inf, R. C. Saklani (IC 35588) Inf, D. S. Nanuan (IC 35589) Artillery, R. Chatterjee (IC 35590) Artillery, M. P. Singh (IC 35591) A.S.C., Gurvinder Singh (IC 35592) Artillery, 31st Jul 1984.

J. Mathew (IC 35593) Inf, D. K. Das (IC 35594) Artillery, S. S. Hora (IC 35595) Artillery, O. K. Nanda (IC 35596) Artillery, Kulbinder Singh (IC 35599) Signals, D. S. Bose (IC 35600) Inf, S. S. Deol (IC 35601) Inf, A. B. Shivane (IC 35602) Armd Corp, K. R. Rao (IC 35603) AOC, Bhai Singh (IC 35604) Inf, P. C. Malakar (IC 35605) Inf, G. K. Pandey (IC 35606) Artillery, H. S. Bhati (IC 35607) Armd Corp, T. K. Sircar (IC 35608) Inf, S. S. Bisht (IC 35609) AOC, Balbir Singh (IC 35610) ASC, Manjit Singh (IC 35611) Artillery, J. S. Bedotra (IC 35612) Inf, S. K. Yadav (IC 35613) FME, C. P. Ramchandani (IC 35614) Engineers, P. S. Ranhotra (IC 35615) Inf, S. G. Thennavan (IC 35616) Artillery, Rajinder Singh (IC 35617) AOC, Gian Chand (IC 35618) AOC, S. S. Pathania (IC 35619) Inf, B. S. Prasad (IC 35621) Artillery, A. T. Dhar (IC 35622) ASC, R. K. Kapur (IC 35623) Signals, S. K. Behl (IC 35624) Artillery, A. K. Sehgal (IC 35625) Artillery, 31st July 1984.

H. Krishna (IC 35696) Inf, Preetinder Singh (IC 35697) Inf, M. Roy (IC 35699) Inf, D. Malhotra (IC 35700) Artillery, D. V. Deswal (IC 35701) A.S.C., Krishna Menon M (IC 35702) Artillery, A. P. Rao (IC 35703) Inf, C. K. S. Mann (IC 35704) Inf, Birendra Kumar (IC 35705) A.O.C., G. J. Ronaid (IC 35707) Signals, N. S. Yogesh (IC 35708) Inf, Suren Kumar (IC 35709) Inf, R. S. Sandhu (IC 35710) Armd Corp, N. Khullar (IC 35711) Armd Corp, J. Gerald (IC 35712) Inf, Gurdeep Singh (IC 35714) Inf, B. P. K. Pillai (IC 35715) Inf, P. Yadav (IC 35716) Inf, G. Srinivasan (IC 35717) Artillery, Anil Kumar (IC 35718) A.O.C., Narinder Singh (IC 35719) A.S.C., N. K. Mathur (IC 35720) Arty, V. K. Raghawan (IC 35721) Inf, T. R. Sharma (IC 35722) E.M.E., A. Chattopadhyay (IC 35723) Artillery, K. P. Ravendran (IC 35725) A.O.C., S. Sista (IC 35726) Artillery, Sudhir Singh (IC 35727) Inf, V. Ravi (IC 35728) Artillery, S. K. Basu (IC 35729) Artillery, 31st Jul 1984.

P. K. Sarker (IC 35765) Inf, P. B. Murthy (IC 35767) A.O.C., A. K. Sharma (IC 35768) Artillery, D. C. Goyal (IC 35769) A.S.C., M. Gupta (IC 35770) A.O.C., A. Clifton (IC 35772) Inf, P. D. N. Kishore (IC 35774) Signals, S. K. Suresh (IC 35775) Artillery, H. K. Vaidya (IC 35776) Inf, A. Mukherji (IC 35777) Artillery, T. Amarnath (IC 35773) Artillery, Vijay Kumar (IC 35780) Inf, A. Naseri (IC 35781) Inf, J. Saini (IC 35782) Inf, G. S. Baidwan (IC 35784) Inf, J. S. Rana (IC 35786) A.O.C., K. R. Singh (IC 35788) Artillery, Ranjit Singh (IC 35789) AEC, D. Choudhury (IC 35790) AEC, R. S. Khatri (IC 35801), AEC, Chand Ram (IC 35802), AEC, P. Vadakumthani (IC 35810), AEC, J. M. Sharma (IC 35812), AFC, P. Chakraborty (IC 35833), AEC, S. N. Chinnan (IC 35874) A.E.C., 31st Jul 1984.

A. K. S. Sengar (IC 35901) Inf, Dharam Singh (IC 35902) Armd Corps, G. S. Bhullar (IC 35903) Armd Corp, S. Chand (IC 35904) Inf, K. Bandyopadhyay (IC 35905) Engineers, B. S. Kohli (IC 35906) Inf, A. K. Prasad (IC 35907) Inf, A. Anand (IC 35908) Engineers, A. S. Pawar (IC 35909) Inf, R. K. Thapa (IC 35910) Inf, Ranjeet Singh (IC 35911) Inf, S. P. Patil (IC 35912) Inf, M. M. Nadaf (IC 35913) Engineers, A. K. Sharma (IC 35914) Engineers, R. Tewari (IC 35915) Armd Corps, H. Nagar (IC 35916) Artillery, A. K. Singh (IC 35917) Artillery, Amarjeet Singh (IC 35919) Inf, P. K. Dogra (IC 35921) Artillery, V. Bakshi (IC 35922) J. S. Cheema (IC 35923) Inf, R. Dua (IC 35924) E.M.E., S. Agarwal (IC 35925) Inf, V. K. Madan (IC 35926) Artillery, C. N. Reddy (IC 35927) Inf, G. K. Srivastava (IC 35928) Artillery, V. K. Sharma (IC 35929) Artillery, A. K. Arora (IC 35930) Arty, A. K. Sharma (IC 35931) Inf, R. Suresh (IC 35932) Artillery, 31st Jul 1984.

V. C. Katoch (IC 37175) Armoured Corps, R. C. Singh (IC 37177) Inf, R. S. Sidhu (IC 37178) Inf, V. K. Chhiber (IC 37179) Inf, V. K. S. Malik (IC 37180) Inf, S. Banerjee (IC 37181) Armoured Corps, S. Vayaboury (IC 37182) A.O.C., Suresh Kumar (IC 37184) Inf, J. P. Singh (IC 37185) Artillery, R. Ramchandran (IC 37186) Armoured Corps, K. P. S. Rana (IC 37187) Inf, Satish Kumar (IC 37188) Artillery, B. S. Sambyal (IC 37189) Inf, R. M. Sharma (IC 37190) A.S.C., P. K. Vaidya (IC 37191) Artillery, S. Adhikari (IC 37193) Inf, Gurmeet Singh (IC 37194) E.M.E., Kulbir Singh (IC 37195) AOC, A. D. Palande (IC 37196) Inf, M. K. Pande (IC 37198) Signals, I. K. Chowdhari (IC 37199) Artillery, B. B. Atray (IC 37200) Armoured Corps, P. S. Shekhawat (IC 37201) A.S.C., K. C. Pant (IC 37202) Inf, V. K. Sharma (IC 37203) Inf, B. Poornen (IC 37204) Inf, M. A. Chaudhary (IC 37205) Artillery, S. Padmanabhi (IC 37210) Inf, N. S. J. S. Solanki (IC 37212) Signals, T. P. Singh (IC 37213) Armoured Corps, 31st Jul 1984.

N. K. Singh (IC 37215) Inf, A. K. S. Chauhan (IC 37219) Artillery, Uttam Singh (IC 37220) Inf, R. Sakharia (IC 37222) Inf, A. Chander (IC 37223) Inf, K. T. Unnikrishnan (IC 37224) Engineers, C. R. Devanathan (IC 37226) Engineers, S. Chawla (IC 37227) Inf, G. D. E. Belligraham (IC 37228) FME, Kulwant Singh (37229) Armoured Corps, A. K. Sharma (IC 37230) Inf, Y. K. Mathur (IC 37232) Artillery, O. P. Yadav (IC 37233) Inf, Raj Kumar (IC 37234) Inf, Jai Prakash (IC 37236) Inf, M. Arumugam (IC 37237) Engineers, Y. K. Puri (IC 37240) Armoured Corp, J. Chander (IC 37241) Inf, J. Frederick (IC 37243) Artillery, J. K. Uthup

(IC 37244) A.O.C., R. Kulkarni (IC 37245) Inf, V. Santhanam (IC 37246) Artillery, G. S. Chandel (IC 37247) Inf, K. R. Sasi Kumar (IC 37254) Artillery, A. Dass (IC 37255) Inf, R. S. Manral (IC 37256) Inf, B. C. Verghese (IC 37258) Engineers, Sandeep Kumar (IC 37259) Engineers, S. K. Chaturvedi (IC 37262) Inf, P. K. Uppal (IC 37264) Armoured Corps, K. M. Dasan (IC 37265) Artillery, 31st Jul 1984.

P. S. Mehta (IC 37316) Armd Corp, A. R. Samuel (IC 37317) Inf, A. Vig (IC 37318) Artillery, Bishamber Dayal (IC 37320) Armd Corp, R. K. Rawat (IC 37323) Inf, P. P. S. Bal (IC 37324) A.S.C., Satish Kumar (IC 37325) Inf, S. Ram (IC 37327) A.S.C., J. S. Pama (IC 37328) Inf, V. Selvaraj (IC 37329) Artillery, N. Vij (IC 37331) Artillery, M. P. Patil (IC 37332) Inf, A. F. Burby (IC 37333) Artillery, V. S. Chand (IC 37334) Artillery, Rajinder Singh (IC 37335) Inf, Samunder Singh (IC 37336) Inf, H. S. Brar (IC 37338) Inf, A. V. Joseph (IC 37339) Signals, V. C. Divakaran (IC 37340) Inf, N. D. S. Katoch (IC 37341) Armd Corp, G. Lobo (IC 37343) Inf, A. K. Sood (IC 37346) Artillery, R. Jairath (IC 37349) Artillery, M. M. Jain (IC 37352) A.O.C., D. Raina (IC 37354) A.O.C., Ranbir Singh (IC 37355) Inf, Harinder Singh (IC 37357) Armd Corp, Raj Kumar (IC 37358) Inf, O. S. Rekhra (IC 37361) Artillery, K. S. Jodha (IC 37365) Inf, 31st Jul 1984.

Y. Taragi (IC 37367) Inf, B. P. Chandra (IC 37368) Artillery, A. K. Ganguly (IC 37369) Inf, Baljit Singh (IC 37370) A.O.C., Ashok Kumar (IC 37371) A.S.C., B. G. Cariappa (IC 37372) Inf, O. P. Yadav (IC 37373) Artillery, B. Prakash (IC 37376) Inf, D. R. Sharma (IC 37378) Inf, R. S. Raghav (IC 37379) Inf, T. V. Devgun (IC 37380) Artillery, Jaspal Singh (IC 37381) Signals, Arun Kumar (IC 37382) Signals, Nawal Kapoor (IC 37384) Artillery, Ravinder Singh (IC 37385) Signals, D. Sapra (IC 37386) Inf, Karunendra Singh (IC 37387) Inf, M. S. Nigania (IC 37388) Artillery, V. S. Garewal (IC 37389) Inf, Ashok Kumar (IC 37391) A.S.C., Bachittar Singh (IC 37392) Inf, Y. Mohindru (IC 37393) A.O.C., M. S. Bika (IC 37395) Artillery, P. S. Rathore (IC 37396) Inf, A. Dixit (IC 37397) Inf, R. Ravindran (IC 37398) Inf, A. K. Bhardwaj (IC 37399) Armd Corp, K. P. Chauhan (IC 37400) Inf, S. Burathoki (IC 37402) Inf, P. Jayakrishnan (IC 37403) Signals, 31st Jul 1984.

Gajinder Singh (IC 37404) Inf, G. P. Raju (IC 37405) Artillery, R. K. Jairath (IC 37406) Inf, Rajeshwar Singh (IC 37407) Inf, J. C. Thakur (IC 37409) Armd Corp, S. Pathak (IC 37410) Engineers, B. S. Laungia (IC 37412) Inf, P. K. Singh (IC 37416) Artillery, M. D. Gupta (IC 37419) Inf, V. K. Yadav (IC 37420) Inf, P. K. Saran (IC 37421) Artillery, S. B. Singh (IC 37423) Inf, G. P. Kumar (IC 37425) Inf, S. Khilnani (IC 37427) Inf, H. P. Vesuna (IC 37428) Inf, Pramod Kumar (IC 37430) Artillery, A. Gupta (IC 37431) Artillery, D. Adib (IC 37432) Armd Corp, R. A. Rampal (IC 37436) Engineers, Jasbir Singh (IC 37439) Artillery, K. S. Kamboj (IC 37440) EME, S. Pande (IC 37442) Inf, 31st Jul 1984.

M. S. Nair (IC 38154) Inf, J. Lakshmiram (IC 38155) Inf, M. Thapa (IC 38156) Inf, I. Prasad (IC 38157) Inf, R. K. Shrikhande (IC 38158) Artillery, K. C. Menon (IC 38159) Inf, R. Chopra (IC 38160) Inf, L. Roy (IC 38161) Artillery, N. Sitihou (IC 38162) Inf, Ravinder Singh (IC 38166) AOC, R. K. Gupta (IC 38167) Artillery, S. V. Dalvi (IC 38169) Armd Corp, Hari Kumar T (IC 38171) Artillery, S. Sridhar (IC 38176) Artillery, S. S. Vaid (IC 38177) Artillery, F. S. Sathyanesan (IC 38178) Inf, Rajendra Singh (IC 38179) AOC, S. Issar (IC 38180) Inf, M. N. M. Dhara (IC 38182) Artillery, S. K. Keenzhoor (IC 38205) AEC, P. Paul (IC 38208) AEC, R. K. Rastogi (IC 38222) AFC, A. Sarin (IC 38227) AEC, C. S. Joshi (IC 38228) AEC, J. Thomas (IC 38229) AEC, P. Khare (IC 38230) AEC, S. Chandra (IC 38231) AEC, K. Kumaraswami (IC 38236) AEC, K. S. Reddy (IC 38238) AEC, A. K. Upreti (IC 38252) AEC, B. G. Ray (IC 38253) AEC, 31st Jul 1984.

ASHOK CHAKI, Lt Col AMS



No. 558, dated 25th February 1985.—The President is pleased to make the following promotion under the provisions of AI 226/68 with effect from 22nd November 1984 :—

**REGULAR ARMY****SHORT SERVICE COMMISSION***Captains to be Quasi-Substantive Majors*

Radhey Shyam Bansal (VS-733) RVC  
Uday Kumar (VS-734) RVC.

Krishna Pratap (VS-735) RVC.

Raghubir Singh Panghal (VS-736) RVC.

Smt. B. NAGESWARI, Under Secy.

No. 559, dated 1st March, 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY****SHORT SERVICE COMMISSION***2/LT TO BE LT*

P. S. Ahlawat (SS 30099) and S. S. Dhillon (SS 30217)  
Arty 1 Sept 81.

ASHOK CHAKI, Lt Col AMS

No. 560, dated 23rd February, 1985.—The President is pleased to make the following promotion :—

**TERRITORIAL ARMY****(TERRITORIAL COMMISSION)***Capt to be Major*

J. M. Ovasdi, (TA-41267) Engrs. 11 Aug 82.

H. D. SINHA, Under Secy.

No. 561, dated 26th February, 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY***Army Service Corps**(Supply)**To be Substantive Subedar (Personal Assistant)*

Sub Kunwar Singh (JC-111268-M) 20 Jul 84.

Sub Shree Ram (JC-111269-P) 21 Jul 84.

*To be Substantive Subedar Major Clerk (GD/SD)*

Sub Maj George CG (JC-71343-A) 01 Jul 84.

Sub Maj K. S. Kanda Samy (JC-71347-W) 01 Jul 84.

Sub Maj Raj Deo Sharma (JC-73304-A) 01 Aug 84.

Sub Maj Gopala Krishnan Nair K (JC-73305-H) 01 Aug 84.

*To be Substantive Subedar Clerk (GD/SD)*

Sub Sarman Singh Kushwaha (JC-99977M) 01 Jul 84.

Sub Sudhindra Chandra Dev (JC-99978P) 01 Jul 84.

Sub Baidya Nath Singh (JC-99979X) 01 Aug 84.

Sub Jan Mohammad Khan (JC-99980M) 01 Aug 84.

Sub Nishi Kanta Sinha (JC-99981P) 31 Aug 84.

**REGULAR ARMY****A.S.C.****A.T.***To be Ris Maj*

Ris Ram Prasad (JC-71333N) 01 Aug 84,

*To be Ris/Sub*

Nb Ris Maya Ram (JC-99726H) 02 Mar 84.

Nb Ris Hari Datt Bhatt (JC-99728N) 01 Jul 84.

Nb Ris Ram Autar (JC-99729W) 01 Aug 84.

Nb Ris Ram Sarup (JC-99730L) 01 Sep 84.

Nb Ris Kishan Chand (JC-99731N) 01 Sep 1984.

Nb Ris Rameshwar Singh Sonkar (JC-103093A) 01 Sep 84

Nb Ris Murlidhar (JC-103094H) 01 Oct 84.

Nb Ris Devi Datt Pathak (JC-103095L) 01 Dec 84.

Nb Sub Ram Dular Ram (JC-85215P) 01 Sep 84.

Nb Sub Brij Raj Paliwal (JC-98606K) 01 Sep 84.

Nb Sub Rimal Singh (JC-105897W) 01 Oct 84.

Smt. B. NAGESWARI, Under Secy.

No. 562, dated 23rd February, 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY***Regiment of Artillery**To be Sub Maj*

Sub Talvir Singh (JC-53662K) 1st Nov 1984.

Sub Hardial Singh Kaler (JC-73626A) 1st Nov 1984.

Sub Ram Salunke (JC-66804P) 1st Nov 1984.

Sub Gajraj Singh (JC-73627H) 1st Nov 1984.

Sub Til Bahadur Thapa (JC 76828M) 1st Nov 1984.

Sub Sardul Singh (JC 58656A) 1st Nov 1984.

*To be Sub (Clk GD/SKT)*

Nb Sub T. Janardanan Namblar (JC 107559P) 1st Nov 1984.

Nb Sub Dhara Singh Dahiya (JC 112254Y) 1st Nov 1984.

Nb Sub Shankar Ram Yadav (JC 114490Y) 1st Nov 1984.

Nb Sub Albel Singh Toor (JC 111578X) 1st Nov 1984.

Nb Sub Pritam Singh (JC 112255F) 1st Nov 1984.

*To be Sub (AIG/ITFC)*

Nb Sub Phuman Singh (JC 92991F) 1st Nov 1984.

Nb Sub Uma Nand (JC 95139A) 1st Nov 1984.

Nb Sub Sheotaj Singh (JC 95135K) 1st Nov 1984.

Nb Sub Ram Ratan Singh Chauhan (JC 92992Y) 1st Nov 1984.

Nb Sub Narain Datt Joshi (JC 92993F), 1st Nov 1984.

*To be Subedar*

Nb Sub Shankar Dass (JC 109004M), 1st Dec 1983.

Nb Sub Prem Singh (JC-120375P), 1st Dec 1983.

Nb Sub Kartar Chand (JC-109012L), 1st Mar 1984.

Nb Sub Kulwant Singh (JC-112236W), 1st Mar 1984.

Nb Sub Rajindar Bahadur Singh (JC-110119M), 1st Apr 1984.

Nb Sub Chhote Lal (JC-108682A), 1st Apr 1984.

Nb Sub Partap Singh (JC 118264Y), 2nd Apr 1984.

Nb Sub Himmat Singh (JC 112201A), 31st Aug 1984.

Nb Sub Joginder Singh (JC 106291W), 1st Sep 1984.

Nb Sub Sukhdev Singh (JC 109549K), 1st Oct 1984.

Nb Sub Sarwan Singh (JC-104591Y), 1st Oct 1984.

Nb Sub Krishna Bir Lama (JC-106665F), 1st Nov 1984.

Nb Sub Ranjit Singh (JC 109041A), 1st Dec 1984.

Nb Sub Joginder Singh (JC-106651F), 1st Dec 1984.

Nb Sub Punjab Singh (JC 109641H), 1st Dec 1984.

Nb Sub Amrik Singh (JC 124070M), 1st Jan 1985.

Nb Sub Balkar Singh (JC 106942F), 1st Jan 1985.  
 Nb Sub Kashmira Singh (JC 112076F), 1st Jan 1985.  
 Nb Sub Jagir Singh (JC 109915K), 1st Jan 1985.  
 Nb Sub Velavudhan Sivadasan (JC 107668F), 1st Jun 1983.  
 Nb Sub Shiv Shankar (JC 108709M), 1st Sep 1983.  
 Nb Sub Hari Wagh (JC 108762X), 1st Feb 1984.  
 Nb Sub Raj Pal Singh (JC 111876N), 1st Mar 1984.  
 Nb Sub Banwari Lal (JC 112062F), 1st Mar 1984.  
 Nb Sub Gorakh Nath Singh (JC 108713P), 21st Mar 1984.  
 Nb Sub Tara Singh (JC 109594N), 1st Apr 1984.  
 Nb Sub Kartar Singh (JC 98397N), 1st Jun 1984.  
 Nb Sub Mangal Ram (JC 114232Y), 1st Jun 1984.  
 Nb Sub G Ezhumalai (JC 123498P), 1st Jun 1984.  
 Nb Sub Jaswant Singh (JC 124093N), 15th Jun 1984.  
 Nb Sub Sangam Lal (JC 107539F), 1st Jul 1984.  
 Nb Sub Molivasgan (JC 107482X), 1st Jul 1984.  
 Nb Sub Babu Ruo Sawant (JC 112133K), 1st Jul 1984.  
 Nb Sub Badri Singh (JC 111945Y), 1st Jul 1984.  
 Nb Sub Ajmer Singh (JC 127828X), 1st Jul 1984.  
 Nb Sub Ramesh Chand (JC 105184M), 1st Sep 1984.  
 Nb Sub Babu Singh (JC 112238F), 1st Sep 1984.  
 Nb Sub Priithi Singh (JC 123988A), 1st Sep 1984.  
 Nb Sub Shri Ram Yadav (JC 101059F), 1st Oct 1984.  
 Nb Sub Prem Singh (JC 109047F), 1st Oct 1984.  
 Nb Sub Banwari Lal (JC 109056L), 1st Oct 1984.  
 Nb Sub Shiv Shankar Singh (JC 119813A), 1st Oct 1984.  
 Nb Sub Puran Singh (JC 118223P), 1st Oct 1984.  
 Nb Sub Muttukur Perumal Durai Swamy (JC 108261X), 1st Oct 1984.  
 Nb Sub Hoshiar Singh (JC 123974X), 1st Nov 1984.  
 Nb Sub K Ramathulla (JC 120174W), 1st Nov 1984.  
 Nb Sub Sree Narayana Pillai Madathil Kuttan (JC 112102K), 1st Dec 1984.

**REGULAR ARMY***Corps of Signals**To be Nb Sub (Y of S)*

Hav Srinivasan Ramanujam (No. 6297250X now JC 141078P), 21st Sep 1984\*.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Nasib Chand (No. 14200141P now JC 141079X), 8th Sep 1984\*\*\*.  
 \*\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Sarnam Singh (No. 14201610Y now JC 141080M), 8th Sep 1984\*\*\*.  
 \*\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Ram Chander Dhanwal (No. 14201511W now JC 141081P), 7th Aug 1984\*.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Natesan Manoharan (No. 14277317P now JC 141082X), 28th Aug 1984% %.  
 %%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Ashwani Kumar (No. 14279916N now JC 141083A), 6th Aug 1984% % %.  
 %%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Raja Ram Vishwakarma (No. 6325924H now JC 141084H), 11th Aug 1984\*.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Baleshwar Rai (No. 6315010L now JC 141085L), 1st Aug 1984.  
 Hav Satya Narain Verma (No. 6308404F now JC 141086N), 28th Aug 1984\*\*.  
 \*\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Ajit Singh (No. 14200312W now JC 141087W), 8th Aug 1984\*\*\*.  
 \*\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Jagbir Singh (No. 14280424F now JC 141088Y), Aug 1984%.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Hrudananda Sahu (No. 1421072H now JC 141089F), 10th Aug 1984% %.  
 %%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

*To be Nb Sub (F of S)*

Hav Bhaagat Singh Rathour (No. 6320359M now JC 141090W), 21st Aug 1984% % %.  
 %%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Budhi Singh Chauhan (No. 6325747N now JC 141091Y), 10th Aug 1984@.  
 @ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Mesh Singh Khupal (No. 6314792A now JC 141092F), 8th Aug 1984@@.  
 @@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Rup Chand (No. 6317562X now JC 141093K), 2nd Sep 1984\*.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Siba Prasad Mahapatro (No. 6309078W now JC 141094M), 10th Aug 1984\*\*.  
 \*\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Raghunandan Singh (No. 6326715X now JC 141095P), 1st Aug 1984.  
 Hav Pisal Tanaji Bahu (No. 14281685F now JC 141096X), 10th Aug 1984\*\*\*.  
 \*\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Avtar Singh Pathania (No. 14212847W now JC 141097A), 7th Aug 1984%.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Srinivasan Raja Ram (No. 14285462F now JC 141098H), 10th Aug 1984% %.  
 %%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).  
 Hav Shiv Ram (No. 14214719X now JC 141099I), 19th Aug 1984% % %.  
 %%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Kadri Yellappa (No. 14218201F now JC 141100P), 28th Aug 1984@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Hardev Singh (No. 14218336H now JC 141101X), 14th Aug 1984@@.

@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Priyatosh Biswas (No. 14218807L now JC 141102A), 4th Aug 1984\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Sheo Ram Sahay Bhagat (No. 14220028F now JC 141103H), 21st Aug 1984\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Kumar (No. 14220008N now JC 141104L), 18th Sep 1984\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Nand Kishore Singh (No. 14212412N now JC 141105N), 12th Aug 1984%.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Dhanpat Singh (No. 14219525Y now JC 141106W), 19th Aug 1984%%.

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Subastian K J (No. 14290515Y now JC 141107Y), 10th Aug 1984%% %.

%% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Sachidanand Choudhary (No. 14202788F now JC 141108F), 8th Aug 1984@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh Bahniwal (No. 14203002W now JC 141109K), 18th Aug 1984@@.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Krishan Chand Katoch (No. 14291198P now JC 141110Y), 1st Aug 1984.

Hav Tara Singh (No. 6312621P now JC 141111F), 16th Aug 1984.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Vindeshwari Prasad Shukla (No. 14207821Y now JC 141112K), 3rd Sep 1984\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Maheshwar Ray (No. 14211769X now JC 141113M), 7th Aug 1984\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Dinesh Kumar (No. 14285074K now JC 141114P), 1st Aug 1984.

Hav Kewal Singh Jhootty (No. 14285925L now JC 141115X), 1st Aug 1984.

Hav Chikkanna Setty Amruthur Nanja Setty (No. 14214476X now JC 141116A), 7th Aug 1984%.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Bhosale Ashok Laxman (No. 14289143M now JC 141117H), 25th Aug 1984%%.

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Dhokal Ram Bishnoi (No. 14218144L Now JC 141118L), 1st Aug 1984.

Hav Sita Ram Thakur (No. 14290730K now JC 141119N), 14th Aug 1984\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Sarwan Singh (No. 14290821N now JC 141120H), 9th Aug 1984\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Kashi Nath Jha (No. 14220071H now JC 141121L), 17th Aug 1984\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Nazir Alam Ansari (No. 14214114W now JC 141122N), 10th Aug 1984%.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Lallan Prasad (No. 14290661Y now JC 141123W), 9th Aug 1984%%.

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Viswalingam Sudar Mani (No. 14216568H now JC 141124Y), 8th Aug 1984%% %.

%% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Hardial Singh (No. 14212865Y now JC 141125F), 1st Aug 1984.

Hav Dharmarajan Vazhoor Kunchi Kannan (No. 1421992N now JC 141126K), 21st Aug 1984@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Harbhajan Singh (No. 14283230K now JC 141127M), 13th Aug 1984@@.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Babu Ram (No. 6310613X now JC-141128P),\* 14th Aug 1984.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Karam Singh (No. 14290860M now JC-141129X),\*\* 14th Aug 1984.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Bhaskaran C (No. 14285181L now JC-141130M)\*\*\* 9th Aug 1984.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Sher Singh (No. 14211195W now JC-141131P) % 10th Aug 1984.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Raja Ram (No. 14290369K now JC-141132X)%% % 6th Aug 1984.

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Subbraya Thiagarajan (No. 14216570A now JC-141133A)%% % 11th Aug 1984.

%% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Op Ciph)

Hav Bachcha Prasad Sharma (No. 6318457N now JC-141134H)@ 9th July 1984.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Hans Raj Chawla (No. 6298200M now JC-141135-L),@@ 30th May 1984.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).

- Hav Drabyeshwar Prasad (No. 6291204M now JC-141136-N)@@@ 18th June 1984.  
 @@@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Baldev Raj (No. 6288075M now JC-141137W)\* 18th Aug 1984.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav K Narayanan (No. 6303688M now JC-141138Y)\*\* 13th Aug 1984.  
 \*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Mahipal Singh (No. 6299226A now JC-141139F)\*\*\* 21st Aug 1984.  
 \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Mohan Kukarni (No. 6321535L now JC-141140W), 1st Aug 1984.  
 Hav Mohinder Singh (No. 6303564X now JC-141141Y)% 9th Aug 1984.  
 %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Vinyak Barge (No. 6277188P now JC-141142F)%% 1st Sep 1984.  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Ram Singh (No. 6300385M now JC-141143K)%% 11th Aug 1984.  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Narayana Kurup Sabadeva Kurup (No. 6307184W now JC-141144M)@ 18th Aug 1984.  
 @(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Bhawani Ram (No. 6307393N now JC-141145P)@@ 5th Aug 1984.  
 @@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Niamat Masih (No. 6307396F now JC-141146-X)@@@ 20th Aug 1984.  
 @@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Tarsem Singh (No. 6302244W now JC-141147A)\* 24th Aug 1984.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Ashok Borate (No. 6306634W now JC-141148H)\*\* 18th Aug 1984.  
 \*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Samay Lal Yadava (No. 6307559K now JC-141149-L)\*\*\* 13th Sep 1984.  
 \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Ramji Lal (No. 6307676P now JC-141150A)% 28th Aug 1984.  
 %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Thundu Parampil Chacko Thomas (No. 6307503X now JC-141151H)%% 10th Sep 1984.  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Shish Ram (No. 6307660K now JC-141152L)%% 18th Aug 1984.  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Gopala Krishnan Nair (No. 6323880X now JC-141153N)@ 14th Aug 1984.  
 @(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Shasanka Sekhar Dutta (No. 6308650M now JC-141154W)@@ 7th Aug 1984.  
 @@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- To be Nb Sub (Op Spec)*
- Hav Hari Shanker Prasad (No. 6283646W now JC-141155-Y)@@@ 13th July 1984.  
 @@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Satbir Singh Surra (No. 6325450M now JC-141156-F)\* 27th Aug 1984.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).
- To be Nb Sub (Clk GD)*
- Hav Rangan Kalia Perumal (No. 6639547F now JC-141157-K), 1st May 1984.  
 Hav Nck Chand (No. 6639588L now JC-141158M)\*\* 14th Aug 1984.  
 \*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Randhir Singh (No. 6321041F now JC-141159P)\*\*\* 19th July 1984.  
 \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Shco Kumar Singh (No. 6639678M now JC-141160-K)% 18th July 1984.  
 %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Pulimootil Varkey George (No. 6295809L now JC-141161M)%% 29th June 1984.  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Kesar Singh (No. 6639680L now JC-141162P)%% 14th Sep 1984.  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Jagat Narain Dwivedi (No. 6299903M now JC-141163X)@ 16th Aug 1984.  
 @(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Om Parkash (No. 6639740N now JC-141164A) 15th June 1984.  
 Hav Dharam Pal Singh (No. 6639763P now JC-141165H)\* 2nd Aug 1984.  
 \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Chinagiwali Kasimsab Kadiwal (No. 6321140K now JC-141166L)\*\* 26th June 1984.  
 \*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Oommen Varghese (No. 6295065L now JC-141167-N)\*\*\* 4th July 1984.  
 \*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- Hav Kurian P C (No. 6300963M now JC-141168W)% 10th July 1984.  
 %(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th June 1984 without effect on pay and allowances).
- To be Nb Sub (GD)*
- Hav Suresh Chander (No. 6281580N now JC-141169Y)%% 9th Oct 1984.  
 %% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Chintamani Pande (No. 6283743N now JC-141170-N) % % % 1st Aug 1984.

% % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Mahander Singh Yadav (No. 6282248H now JC-141171W) @ 5th May 1984.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Kalesham Rao Shripad Rao (No. 6285563K now JC-141172Y) @@ 19th June 1984.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Arjun Pandey (No. 6284774A now JC-141173F) \* 27th July 1984.

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st May 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Sidharathan T K (No. 6285407A now JC-141174K) \*\* 21st Aug 1984.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Rameshwar Singh (No. 6284132L now JC-141175-M) \*\*\* 29th Aug 1984.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Behari Lal (No. 6287677N now JC-141176P) % 14th Sep 1984.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh (No. 6288055Y now JC-141177X) % % 6th Sep 1984.

% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Augusty T (No. 6288191L now JC-141178A) % % % 21st Aug 1984.

% % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Mrinal Kanti Ghosh (No. 6287325W now JC-141179-H) @ 22nd Aug 1984.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Narayan (No. 6288772M now JC-141180X) @@ 3rd Sep 1984.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Gurnam Singh (No. 6290633F now JC-141181-A) @@@ 11th Sep 1984.

@@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav N K Kunhi Kannan (No. 6282184H now JC-141182-H) \* 13th Aug 1984.

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Chambel Singh (No. 6281497P now JC-141183L) \*\* 21st Aug 1984.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Pookkulangara Janardanan (No. 6295224X now JC-141184N) \*\*\* 21st Aug 1984.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh (No. 6282328A now JC-141185W) % 10th Aug 1984.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Narayan Sharma (No. 6297189Y now JC-141186-Y) % % 8th Sep 1984.

% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Kumaran Ezhuthu Pillai (No. 6283955Y now JC-141187F) % % 6th Sep 1984.

% % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Ashwini Kumar Pandey (No. 6297991P now JC-141188K) % % % 14th Aug 1984.

% % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav M Gokulan (No. 6287241H now JC-141190F) @@ 28th Aug 1984.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Prahlad Prasad Srivastava (No. 6288850Y now JC-141191K) \* 14th Aug 1984.

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Athimoolam Namasivayam (No. 6285907X now JC-141192M) \*\* 27th Aug 1984.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav V. P. Natarajan (No. 6276172X now JC-141193P) \*\*\* 10th Sep 1984.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Jaswant Singh (No. 6285130M now JC-141194X) % 6th Sep 1984.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Parbat Singh (No. 6276386N now JC-141195A) 1st Aug 1984.

Hav Raja Gopalan (No. 6278572H now JC-141196-H) % % 17th Aug 1984.

% % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Gulab' Rao Deshmukh (No. 6285739K now JC-141197L) % % % 18th Aug 1984.

% % % (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Surjit Singh (No. 6285900M now JC-141198N) @ 28th Aug 1984.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Brahma Datta Singh (No. 6295315F now JC-141199-W) @@ 31st Aug 1984.

@@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Bhanu Gopal Patnaik (No. 6275115K now JC-141200-A) \* 16th Aug 1984.

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Bishwa Nath Singh (No. 6306896M now JC-141201-H) \*\* 4th Sep 1984.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

Hav Kuldip Rai (No. 6286347H now JC-141202I) \*\*\* 12th Sep 1984.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1984 without effect on pay and allowances).

GAUTAM SEN Under Secy.

No. 563, dated 23rd February, 1985.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**

*Corps of Electrical and Mechanical Engineers*

*To be Sub Maj Technical and Artz (EC)*

Sub Amarjit Singh Gill (JC-52431F), 1st May 1984.

Sub Laiq Ram (JC-52735Y), 1st 1984.

Sub Ajit Kumar Samant (JC-52906A), 1st Nov 1984.

Sub Sahib Singh (JC-52907H), 1st Nov 1984.

*To be Sub Maj Artz (NE)*

Sub Rameshwar Lal (JC-85019N), 1st Nov 1984.

*To be Sub Maj Armourers*

Sub Uttam Singh (JC-80210L), 1st Oct 1984.

Sub Naranjan Singh (JC-80212W), 1st Oct 1984.

Sub Chitramani Deorari (JC-80447H), 1st Oct 1984.

Sub Gurdev Singh Bajwa (JC-80217P), 1st Oct 1984.

*To be Sub Maj Clerk (GD)*

Sub T Gopalan (JC-59163L), 1st Nov 1984.

*To be Sub Maj SK Tech*

Sub Shiv Chand (JC-57726F), 1st Sep 1984.

Sub R Muthu Sammi (JC-58165W), 1st Nov 1984.

Sub Gian Singh Virk (JC-59165-W), 1st Nov 1984.

*To be Sub Maj Rec Mech*

Sub KP Kesavan (JC-76733M), 1st Sep 1984.

Sub Ram Singh (JC-76736A), 1st Sep 1984.

*To be Sub Maj Rec Mech*

Sub Manglesh Singh Ghudwal (JC-88337-H), 1st Oct 1984.

*To be Sub Tech and Artz (EC)*

Naib Sub Balacy VK (JC-98973K), 1st July 1984.

Naib Sub M Lakshman (JC-110704Y), 1st July 1984.

Naib Sub Kishan Narasaji Wankhade (JC-99258N), 1st Aug 1984.

Naib Sub Sher Randhir Singh (JC-97779H), 1st Sep 1984.

Naib Sub Bua Ditta (JC-97783L), 1st Oct 1984.

Naib Sub Sube Singh Balhara (JC-99249M), 1st Oct 1984.

Naib Sub Ranjit Singh (JC-103750Y), 1st Oct 1984.

Naib Sub Sazzanapu Venkateswar Achari (JC-99262W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Bawa Singh (JC-103760H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Raghubir Singh Sharma (JC-99263Y), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kishan Lal (JC-99264F), 1st Oct 1984.

Naib Sub Vinayak Baliramsa Shirbhate (JC-96367P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Gauri Shanker Singh (JC-96368X), 1st Oct 1984.

Naib Sub Dinesh Prasad (JC-116922F), 1st Oct 1984.

Naib Sub Ram Naresh (JC-110318A), 1st Oct 1984.

Naib Sub Waryam Singh (JC-108047P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Udai Bhan Singh (JC-108050P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Puran Singh (JC-108052A), 1st Oct 1984.

Naib Sub Ram Prakash Sharma (JC-108053H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kewal Krishan (JC-110278W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kulanand Kothiyal (JC-108054L), 1st Oct 1984.

Naib Sub Bansi Lal Sharma (JC-108056W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Hans Raj (JC-108057Y), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kamlan Kant Jha (JC-108058F), 1st Oct 1984.

Naib Sub P Titus (JC-108059K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Baldev Singh (JC-108060Y), 1st Oct 1984.

Naib Sub Jairam Singh Katoch (JC-108062K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Amrik Singh (JC-108064P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Shyam Singh Dhapola (JC-110260W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Krishna Kumar (JC-91578N), 1st Oct 1984.

Naib Sub Ramji Lal Verma (JC-80492P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Hari Narayan Roy Choudhury (JC-110261W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Rajendra Pandey (JC-98977A), 1st Oct 1984.

Naib Sub Budhpal Singh (JC-98978H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Hari Singh (JC-97784N), 1st Oct 1984.

Naib Sub Anand Ballabh (JC-96094X), 1st Oct 1984.

Naib Sub PK Ramchandran (JC-109819N), 1st Oct 1984.

Naib Sub Narinder Dutt (JC-108065X), 1st Oct 1984.

Naib Sub Shyam Sunder Swain (JC-108066A), 1st Oct 1984.

Naib Sub Rama Prasad Dubey (JC-108067H), 1st Oct 1984.

Naib Sub SP Arokia Swamy (JC-108068L), 1st Oct 1984.

Naib Sub Surinder Kumar (JC-108069N), 1st Oct 1984.

Naib Sub Om Prakash (JC-108070H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kishan Dayal Sharma (JC-110281K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Prabhati Ram (JC-108071L), 1st Oct 1984.

Naib Sub Bhim Singh (JC-108073W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kashmir Singh (JC-108075F), 1st Oct 1984.

*To be Sub Artz (NE)*

Naib Sub Harpal Singh Balion (JC-114606K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Rameshwar Singh (JC-114576X), 1st Nov 1984.

Naib Sub Mansha Ram (JC-114577A), 1st Nov 1984.

Naib Sub Sudhir Kumar Das (JC-116793M), 1st Nov 1984.

Naib Sub Om Prakash (JC-116794P), 1st Nov 1984.

*To be Sub Armourers*

Naib Sub Ishwar Singh (JC-110502L), 1st Oct 1984.

Naib Sub Thawar Singh (JC-110503W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Ram Chander (JC-110504K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Ram Chandra Bhandavalkar (JC-110505Y), 1st Oct 1984.

Naib Sub Keshave Rao Naidu (JC-110506F), 1st Oct 1984.

Naib Sub Bharat Ram (JC-110507K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Subha Chand Yadav (JC-110508M), 1st Oct 1984.

Naib Sub Bhag Singh (JC-110509P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Mangat Ram (JC-110510K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Balbir Singh Chopra (JC-110511M), 1st Nov 1984.

Naib Sub Vijai Prakash (JC-110512P), 1st Nov 1984.

Naib Sub Gian Chand (JC-110514A), 1st Nov 1984.

Naib Sub Sham Singh (JC-110516L), 1st Nov 1984.

Naib Sub Tilak Raj (JC-110517N), 1st Nov 1984.

Naib Sub Ajit Singh (JC-110518W), 1st Nov 1984.

Naib Sub Hari Chill (JC-110520N), 1st Nov 1984.

Naib Sub CP Narendran Nair (JC-110521W), 1st Nov 1984.

Naib Sub Chandan Singh (JC-110522Y), 1st Nov 1984.

Naib Sub Gopala Krishna Pillai (JC-110524K), 1st Nov 1984.

Naib Sub Mehar Singh (JC-115239P), 1st Nov 1984.

Naib Sub Mahipal Singh (JC-115241M), 1st Nov 1984.

Naib Sub Rajendra Singh Verma (JC-115242P), 1st Nov 1984.

*To be Sub Clerks (GD)*

Naib Sub Varghese Thomas Panicker (JC-90623H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kunkumath Gangadharan (JC-90624L), 1st Oct 1984.

Naib Sub Manphul Singh (JC-90625N), 1st Oct 1984.

*To be Sub SK Tech*

Naib Sub Parma Nand Gautam (JC-110714W), 1st Jan 1984.

Naib Sub Partap Singh Mankoti (JC-110719P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Dalip Singh (JC-110720K), 1st Nov 1984.

Naib Sub Shiv Singh Gosain (JC-110721N), 1st Nov 1984.

*To be Sub Driver (MT)*

Naib Sub Pillamarri Narasimha Sastry (JC-115150H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Lal Singh Chauhan (JC-115153W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Dhura Ram (JC-115154Y), 1st Oct 1984.

Naib Sub Rajinder Singh (JC-80364X), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kasturi Lal (JC-80369W), 1st Oct 1984.

Naib Sub Nivruti Ghornade (JC-84909F), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kanhai Singh (JC-96393W), 1st Nov 1984.

Naib Sub Sachidanand Prasad Srivastava (JC-115146A), 1st Nov 1984.

*To be Sub Rac Mech*

Naib Sub Udai Raj Singh (JC-115027K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Rameshwar Singh (JC-115028M), 1st Oct 1984.

Naib Sub Bhim Singh (JC-115029F), 1st Oct 1984.

Naib Sub Surta Ram (JC-115030K), 1st Oct 1984.

Naib Sub Kirpal Datt (JC-115031M), 1st Oct 1984.

Naib Sub Shankar Shere (JC-115032P), 1st Oct 1984.

Naib Sub Shivaji Shinde (JC-115033X), 1st Oct 1984.

Naib Sub Shaik Sardar Ali (JC-115034A), 1st Oct 1984.

Naib Sub Hans Raj (JC-115035H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Ajit Kumar Biswas (JC-115036I), 1st Oct 1984.

Naib Sub Sonan Nangle (JC-116752H), 1st Oct 1984.

Naib Sub Bhaawan Dass (JC-116753N), 1st Oct 1984.

Naib Sub Gulshan Lal (JC-116754N), 1st Nov 1984.

Naib Sub V Chako (JC-116755W), 1st Nov 1984.

Naib Sub Durga Pandey (JC-116757F), 1st Nov 1984.

S. C. VARMANI, Under Secy.

*Army Branch*

*(REGULAR ARMY—AOC)*

No. 564, dated 19th February, 1985.—Civilian Staff Officers (Ordnance) Shri Raj Kumar retired from service with effect from 31 Jan 1985 (AN).

V. K. SRIVASTAVA, Under Secy.

No. 565, dated 12th February, 1985.—The President is pleased to retire the undermentioned officer on attaining the age of superannuation :—

*REGULAR ARMY*

*Permanent Commission*

Actg Col S MANDAL (MR-1706) AMC/PC—01 Oct 84 (FN).

No. 566, dated 12th February, 1985.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service at their own request for compassionate reasons and transfer them to Regular Reserve of officers (Class 'X') :—

*REGULAR ARMY*

*Permanent Commission*

T COL BK MUKHERJEE (MR-1952) AMC/PC, 13-3-84 (FN).

LT COL VED PARKASH TANEJA (MR-1530) AMC/PC, 7 Jun 84 (FN).

LT COL N GOPALAKRISHNAN (MR-1371) AMC/PC, 11 Jun 84 (FN).

LT COL SK PARASHAR (MR-1955) AMC/PC, 29 July 84 (FN).

LT Col (MRS) Savita Datta (MR-1897) AMC/PC-30 Jul 1984 (FN).

LT Col GS Saluja (MR-1655) AMC/PC-05 Aug 1984 (FN).

LT Col TA Abdul Kader (MR-1973) AMC/PC-28 Aug 84 (AN).

WG CDR B Chand (MR-2214) (8521F) AMC/PC-1-9-84 (FN).

V.K. SRIVASTAVA, Under Secy.

No. 567, dated 23rd Feb., 1985.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service with effect from the dates noted against them on attaining the normal minimum age of retirement :—

*REGULAR ARMY*

*Permanent Commission*

1. Lt Col PC Sawhney, VrC (IC-6797A), Bihar 31 Oct 83 (AN)

2. Lt Col JM Bhatia (IC-7127L), Arty 31 Jan 84 (AN)

3. Lt Col BS Bhandari (IC-7359k), Garh Rif 31-Mar 84 (AN)

4. Lt Col SS Gill (IC-7088X), Arty 31 Mar 84 (AN)

5. Lt Col (TS) J Ghosh (IC-7737X), ASC 31 Mar 84 (AN)

6. Lt Col (TS) AK Bhowmik (IC-7078N), Sigs 31 Mar 84 (AN)

7. Lt Col TP Nair (IC-12514K), Arty 30 Apr 84 (AN)

8. Lt Col BS Mehra (IC-6682M), Arty 30 Apr 84 (AN)

9. Lt Col SC Tandon (IC-6832X), Sigs 30 Apr 84 (AN)

10. Lt Col (TS) BM Yardi (IC-7464A), GR 30 Apr 84 (AN)

11. Lt Col VJ Balreddy (IC-20982Y), Jak Rif 30 Apr 84 (AN)
12. Lt Col VG Khatavkar (IC-21863P), ASC 30 Apr 84 (AN)
13. Maj AVD Pillay (IC-10463H), ASC 30 Apr 84 (AN)
14. Maj Om Prakash Lumba (IC-12334F), ASC 30 Apr 84 (AN)
15. Maj Gurdev Singh (IC-13362A), Bihar 30 Apr 84 (AN)
16. Maj Roop Singh (IC-18020W) Rajput 30 Apr 84 (AN)
17. Maj Girdhar Lal (IC-18292W), ASC 30 Apr 84 (AN)
18. Maj SS Randhawa (IC-18710A), ASC 30 Apr 84 (AN)
19. Lt Col BG Bargaonkar (IC-20169W), ASC 30 Apr 84 (AN)
20. Maj SP Gandhi (IC-20394L), ASC 30 Apr 84 (AN)
21. Maj BD Deshpande (IC-20392A) AOC 30 Apr 84 (AN)
22. Maj NPM Nambiar (IC-20400F), ASC 30 Apr 84 (AN)
23. Maj Sriram (IC-22554Y), Bihar 30 Apr 84 (AN)
24. Maj Kartar Chand (SL-953H), QM 30 Apr 84 (AN)
25. Maj Y Thomas (SL-1233N), QM 30 Apr 84 (AN)
26. Maj Gurdev (SL-1300N), Engrs 30 Apr 84 (AN)
27. Maj TS Mehar (SL-1474N) QM, 30 Apr 84 (AN)
28. Capt B S Manghat (SL-1703N) ASC, 30 Apr 84 (AN)

SULTAN MAHMOOD  
Lt Col  
AMS-7

No. 568, dated 1st March, 85.—The undermentioned officers forfeits service as is shown against the name by sentence of the Summary Trial :—

**REGULAR ARMY**

**SHORT SERVICE COMMISSIONED**

Lt Ashwani Kumar (SS 30579) E.M.E. To take rank and precedence as if his appointment of Lt bore the date of 28th day of Feb 1983. 6th Jul 1984.

ASHOK CHAKI, Lt Col AMS 8A

**NAVAL HEADQUARTERS**

No. 569, dated 16th Feb., 1985.—The President is pleased to appoint Shri AK Tripathy as ACSO (Probationer) in AFHQ Civil Service with effect from 01 Feb. 1985.

SN SINGH, UP Mukhya Prashasan Adhikari

**(NAVY BRANCH)**

No. 570, dated 23rd Feb., 1985.—The President is pleased to appoint Shri H. S. Bajwa, Asstt. Chief Civil Hydrographic Officer as Officiating Chief Civil Hydrographic Officer with effect from 22 Jan 85 (Forenoon).

No. 571, dated 25th Feb., 85.—The President is pleased to appoint the undermentioned Senior Design Officer Grade-II (Engineering) as Officiating Senior Design Officer, Grade-I (Engineering) with effect from 31st Dec 84 (Forenoon):—

- (a) Shri R. V. Devadig
- (b) Shri M. A. Poulouse

M. C. Juneja, Under Secy.

No. 572, dated 27th Feb., 85.—The President is pleased to make the following promotions with effect from the date as indicated :—

**INDIAN NAVY**

*Permanent Commission*

Commander (Ag Capt) to be Captain

**EXECUTIVE BRANCH**

P Jha (00526w), 01-7-84.

SC Anand (00538Y), JS Nagi (60120K), SV Purohit (60122R), MV Karnik (00542F), 01-1-85.

**ENGINEERING BRANCH**

J Subiah (40173A), CP George (40174B), R Nath (40175F), Inderjit Singh (40176H), 01-1-85.

**ELECTRICAL BRANCH**

KB Suri (50129B), BK Dattamajumdar (50130F), 01-1-1985.

**EDUCATION BRANCH**

GS Sen (70052H), 01-1-85.

No. 573, dated 25th Feb., 85.—The President is pleased to make the following substantive promotions with effect from 01 Oct 84 under the provision of NI 32/67 as modified by Ministry of Defence letter No. MP/0314/NHO/3198/SD (N-II) dated 31 Aug 78, corrigendum No. MP/0314/NHO/1534/D (N-II) dated 31 Mar 80, PC to MF/0314/NHO/1390/US/D (N-II) dated 22 Sep 83 and MP/0314/I/NHQ/1402/US/D(N-II) dated 21 Sep 84 :—

**INDIAN NAVY**

*(Permanent Commission)*

*Lt Cdr (Ag Cdr) (SD) to be Commander (SD)*

AK Bose (SDC) (81902R).

Mewa Singh (SDB) (83181Y).

U Nair (SDAV) (84567Y).

AC Sud (SDR) (87517A).

RS Gautam (SDP) (86822Y).

ER Menon (SDAR) (88304R).

*Lt (SD) to be Lt Cdr (SD)*

SS Daima (SDG) (80077T).

PO Samuel (SDG) 80078W).

Pratap Singh (SDTAS) (81270B).

Lattu Singh (SDTAS) (81271F).

Dev Raj (SDTAS) (81272H).

MS Rawat (SDC) (81917Z).

Gurnam Singh (SDC) 81918A).

KP Singh (SDC) (81919B).

KL Khullar (SDC) (81920F).

Sita Pam (SDB) (83188N).

ST Ali (SDR) (83189R).

PR Kanoor (SDB) (83190T).

On Bakshi (SD Reg) (83923H).

PS Rana (SD Reg) (83924K).

JS Balwa (SD Reg) (83925N).

Mela Singh (SDPT) (84307F).



**MP Singh (SDAV) (84578Y).**  
**BR Rao (SDAV) (84579Z).**  
**Anna Ram (SDS) (88536T).**  
**Rup Chand (SDW) (89035A).**  
**Ram Dutt (SDCA) (89507Z).**  
**Harnohinder Singh (SDME) (85054B).**  
**PN Khanna (SDME) (85055F).**  
**Omkar Chand (SDME) (85056H).**  
**LT (SD) TO BE LT CDR (SD)**  
**SS Cheema (SDME) (85052Z).**  
**SS Nangra (SDME) (85057K).**  
**SGK Pillai (SDME) (85058N).**  
**PPJV Panicker (SDME) (85059R).**  
**KD Mazumdar (SDAE) (86017T).**  
**DR Sharma (SDAE) (86018W).**  
**SR Srivastava (SDSW) (86328Z).**  
**A Radhakrishna (SDSW) (86331F).**  
**SP Kapoor (SDSW) (86332H).**  
**DES Raj (SDSW) (86333K).**  
**G Mandal (SDSW) (86334N).**  
**PVS Naydu (SDSW) (86335R).**  
**JS Pilonia (SDP) (86841R).**  
**S Wadhvani (SDP) (86842T).**  
**SS Jaswal (SDP) (86843W).**  
**SLT (SD) TO BE LT (SD)**  
**Dharam Vir (80119H) (SDG).**  
**C Magamathan (SDTAS) (81292B).**  
**MP Mathew (SDTAS) (81293H).**  
**Makhan Singh (SDTAS) (81294H).**  
**BD Jain (SDTAS) (81295K).**  
**AS Sain (SDTAS) (81296N).**  
**M Sheik (SDB) (83201T).**  
**CL Jha (SD Reg) (83942A).**  
**Darshan Singh (SDAV) (84601Z).**  
**SS Yadawa (SDAV) (84602A).**  
**T Chandrasekharan (SDW) (89065W).**  
**RD Singh (SDW) (89066Y).**  
**AS Gahunia (SDP) (86844Y).**  
**PS Bindra (SDP) (86845Z).**  
**RK Tanwar (SDP) (86846A).**  
**HP Sharma (SDP) (86848F).**  
**SP Ratti (SDP) (86848F).**  
**Avtar Singh (SDP) (86852R).**  
**Tarlok Singh (SDP) (86853T).**  
**VK Mehta (SDP) (86854W).**  
**Bakshish Singh (SDP) (86855Y).**  
**KL Sharma (SDR) (87535T).**  
**J Varughese (SDR) (87536W).**  
**Jugdish Charndra (SDR) (87538Z).**  
**MS Atwal (SDR) (87539A).**  
**BK Mehra (SDM) (89721K).**  
**MM Rehman (SDMF) (85053A).**  
**Gurcharan Singh (SDCA) (89511H).**

**AS Xaviy (SDME) (85085Z).**  
**CT Joseph (SDSW) (86348W).**  
**Painapati (SDSW) (86347T).**  
**GD Sachdeva (SDP) (86874R).**  
**Ranjit Singh (SDP) (86875T).**  
**BS Narang (SDR) (87572A).**  
**PPT John (SDAR) (88317W).**  
**Kashmir Singh (SDM) (89740B).**  
**J Mitter (SDS) (88566K).**  
**J Parshad (SDS) (88567N).**

ANJULA NAIB, Deputy Director of Personnel (O&R).

No. 574, dt. 28th Feb., 85.—The President is pleased to make the following promotions with effect from the dates shown against their names:—

**INDIAN NAVY**

*(Permanent Commission)*

*Lt to be Lt Cdr*

*Executive Branch*

**Rajinder Singh (01427T), 01-7-1984.**  
**K S Singh (01426R), 01-7-84.**  
**V S Thapa (01431A), 01-7-84.**  
**K P M S Nair (01447N), 01-7-84.**  
**S S Gill (01445H), 01-7-84.**  
**G S Sachdev (02363W), 08-7-84.**  
**Naresh Kumar (01409A), 16-7-84.**  
**N K Bhardwaj (01388B), 16-7-84.**  
**R Sawhney (01450W), 16-7-84.**  
**T Hari Ram (01506Y), 16-7-84.**  
**K Narayanan (60233T), 29-7-84.**  
**D D Naik (01413K), 16-8-84.**  
**SPS Duggal (01464A), 16-8-84.**  
**R Chopra (01444F), 16-8-84.**  
**N K Jha (02374W), 23-8-84.**  
**Rajeev Kaushal (01403N), 01-9-84.**  
**R George (01453A), 01-9-84.**  
**P A Narayan (01466F), 01-9-84.**  
**Anil Kumar (01433F), 16-9-84.**  
**JA Surrao (01430Z), 16-9-84.**  
**KC Sood (01429Y), 16-9-84.**  
**FA Rodrigues (01448R), 16-9-84.**  
**ARB D'Souza (02375Y), 23-9-84.**

*Engineering Branch*

**DK Chowdhury (40495H), 09-7-84.**  
**RPS Josen (40501Y), 24-7-84.**  
**RC Saxena (40510T), 28-7-84.**  
**NK Sharma (40547A), 02-8-84.**  
**A Wassan (40509R), 24-8-84.**  
**AK Kashatriya (40496K), 24-8-84.**  
**S Malhotra (40497N), 24-8-84.**  
**AA Thosar (40540K), 27-8-84.**  
**VK Puri (40514A), 28-8-84.**

KP Raghavan (40530N), 14-9-84.  
V Bakshi (40612Z), 16-9-84.  
SK Mukherji (40517H), 25-9-84.  
Narendra Singh (40548B), 25-9-84.  
JJR David (40518K), 29-9-84.  
GD Agarwal (40531R), 29-9-84.

*Electrical Branch*

S Muthangi (50461H), 14-7-84.  
R Seoni (50479Z), 16-7-84.  
NS Bijur (50465T), 29-7-84.  
Shangar Singh (50553T), 30-7-84.  
AK Garg (50443T), 01-8-84.  
VK Bhardwaj (50480A), 08-8-84.  
SMM Shahzada (50429K), 09-8-84.

R Venugopal (50473K), 14-8-84.  
A Pande (50415B), 16-8-84.  
BK Barnah (50454T), 16-8-84.  
YN Kaul (50469A), 29-8-84.  
NV Ramiah (50486R), 08-9-84.  
Inderjit Singh (50434Y), 09-9-84.  
Avtar Singh (50440K), 11-9-84.  
P Shukla (50478Y), 13-9-84.  
AC Anand (50458 A), 14-9-84.  
Prabhat Raman (50456Y), 16-9-84.  
DG Chirania (50437B), 26-9-84.

P ANANTHAKRISHNAN,  
Deputy Director of Personnel (OA&R).

No. 575 dated 22nd Feb., 1985—The President is pleased to make the following appointment in the Engineering/Electrical branch of the Indian Navy under the Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. OF/3462/82/DE/SSC/NHQ/1673-US/D(N-II) dated 19th Dec 1984 and OF/2024/UPE/NHQ/1015-US/D(N-II) dated 23 Jul 1984, from the dates shown against their names:—

*To be Ag. Sub Lieutenant (on probation)*

Name	Personal No.	Type of Commission	Date of Entry
<i>DIRECT ENTRY (ENGINEERING BRANCH)</i>			
AV MOHANAN	40943—A	SSC	03 May 82
TP DIKSHIT	40944—B	SSC	03 May 82
K S BHADURI	40945—F	SSC	03 May 82
S A GOVINDLAL	40948—N	SSC	03 May 82
S G GAJANAN	40949—R	SSC	03 May 82
V K SHARMA	40950—T	SSC	03 May 82
RANJIT LAHIRI	40894—R	PC	18 Feb 81
HARINDER PAL SINGH	40989—F	PC	31 Jan 83
SAKTHI MOHAN R	41034—H	SSC	06 Feb 84
<i>DIRECT ENTRY (ENGINEERING BRANCH)</i>			
SHYAM SUNDAR P	50842—Z	SSC	06 Feb 84
UMESH S	50844—B	SSC	06 Feb 84

No. 576 dated 22nd Feb., 85.—The President is pleased to make the following appointment in the Engineering/Electrical branches of the Indian Navy under the Direct Entry Scheme under the Ministry of Defence letter No. OF/2024/UPE/NHQ/1015-US/D(N-II) dated 28 Jul 84 and No. OF/1701/84/II/1801/84/II/DE/NHQ/96-US/D(N-II) dated 17 Jan 85, from the dates shown against their names:—

*To be Ag. Sub Lieutenant (on probation)*

*DIRECT ENTRY (ENGINEERING BRANCH)*

Name	Personal No.	Type of Commission	Date of Entry
A BANDYOPADHYAY	40909—Z	PC	17 Aug 81
VIJAY KUMAR	40997—Z	PC	01 Aug 83
<i>DIRECT ENTRY (ELECTRICAL BRANCH)</i>			
RAJKUMAR DUDEJA	50859—N	SSC	06 Aug 84
C SRINIVAS	50860—R	PC	06 Aug 84

M. P. TANEJA,  
Commander  
D. D. P. S. (R & R)

**(AIR BRANCH)**

No. 577, dated 19th Feb. 84.—The President is pleased to confirm the Provisional Commission and Wings with effect from 28 May 83 and grant Permanent Commission (on 12 months probation) to the undermentioned Pilot Officers in the F(P) branch of IAF who have successfully completed applied stage of fighter training/Semester I, Stage III of Transport Course/Helicopter Conversion Course w.e.f. the dates shown against their names but with the seniority for purpose of pay (except flying pay), promotion and pension w.e.f. 28 May 83 under the provisions of sub para 1(a) of Govt of India, Min of Def letter Nos. Air HQ/-S. 18731/TRG/1781/US/D(Air-IV) dated 27 Sep 79 and Air HQ/S. 18731/-16/TRG/122/D(Air-IV) dated 16 Jan 84. Service in respect of undermentioned officers for flying pay will count from the actual date of completion of Applied stage of fighter training/Transport Conversion Course/Helicopter conversion course as stated against their names :—

**INDIAN AIR FORCE  
FLYING PILOT BRANCH**

R Srivastava (17133), N Harish (17135), RJ Duckworth (17136) and R Rai (17137) w.e.f. 14 Dec 83.

TS Sareen (17138) w.e.f. 10 Dec 83.

A Sharma (17139) w.e.f. 14 Dec 83.

CAK Reddy (17140) w.e.f. 30 Dec 83.

R Hora (17141) and S Ghosh (17142) w.e.f. 14 Dec 83.

R Pundir (17143) w.e.f. 10 Dec 83.

R Bindra (17144) w.e.f. 30 Dec 83.

A Dogra (17145) w.e.f. 10 Dec 83.

S. Gangwani (17146) w.e.f. 30 Dec 83.

B Aditya (17147) w.e.f. 14 Dec 83.

V Prakash (17149) w.e.f. 10 Dec 83.

A Perumal (17150) w.e.f. 14 Dec 83.

DK Sharma (17151) w.e.f. 30 Dec 83.

P Banerjee (17152) and CR Venkatram (17153) w.e.f. 14 Dec 83.

DK Sharma (17154) w.e.f. 10 Dec 83.

RK Sharma (17155) w.e.f. 30 Dec 83.

NS Jamwal (17156) and SS Bhekhwalia (17157) w.e.f. 14 Dec 83.

SR Atmakuri (17158) w.e.f. 30 Dec 83.

S Bandopadhyaya (17159) & A Tiwari (17160) w.e.f. 10 Dec 83.

K Raghvendra (17161) w.e.f. 30 Dec 83.

AK Pradhan (17162) w.e.f. 10 Dec 83.

S Krishnan (17163) & S Sarkar (17164) w.e.f. 14 Dec 83.

JV Paul (17165), BS Yadava (17166) & JX Israel (17167) w.e.f. 30 Dec 83.

T Rajeevan (17168) w.e.f. 14 Dec 83.

PV Deshpande (17169) w.e.f. 10 Dec 83.

SKPS Pillai (17170) and J Chowdhury (17171) w.e.f. 30 Dec 83.

PS Rao (17172) w.e.f. 10 Dec 83.

PR Navalkar (17173) w.e.f. 14 Dec 83.

D Gupta (17174) w.e.f. 10 Dec 83.

V Pereira (17175) w.e.f. 30 Dec 83.

A Thapliyal (17176) w.e.f. 14 Dec 83.

JE Stephen (17177) w.e.f. 10 Dec 83.

RK Bhatia (17179) and RK Tripathi (17180) w.e.f. 30 Dec 83.

SK Borbora (17181) w.e.f. 14 Dec 83.

JD Pillai (17182) w.e.f. 30 Dec 83.

A Saxena (17183) w.e.f. 14 Dec 83.

No. 578, dated 19th Feb., 1985.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted Permanent Commission (on probation) and to promote them to the sub rank of Pgt Offr, w.e.f. the dates stated against their names:—

**INDIAN AIR FORCE  
F(P) BRANCH**

Rank Name and Number	Date of Confirmation	Date of Promotion
Pt Offr R Srivastava . . . . . 17133 . . . . .	14 Dec 83	28-5-84
„ N Harish . . . . . 17135 . . . . .	„	„
„ RJ Duckworth . . . . . 17136 . . . . .	„	„
„ R Rai . . . . . 17137 . . . . .	„	„
„ TS Sareen . . . . . 17138 . . . . .	10 Dec 83	„
„ A Sharma . . . . . 17139 . . . . .	14 Dec 83	„
„ CAK Reddy . . . . . 17140 . . . . .	30 Dec 83	„
„ R Hora . . . . . 17141 . . . . .	14 Dec 83	„
„ S Ghosh . . . . . 17142 . . . . .	„	„
„ R Pundir . . . . . 17143 . . . . .	10 Dec 83	„
„ R Bindra . . . . . 17144 . . . . .	30 Dec 83	„
„ A Dogra . . . . . 17145 . . . . .	10 Dec 83	„
„ S Gangwani . . . . . 17146 . . . . .	30 Dec 83	„
„ B Aditya . . . . . 17147 . . . . .	14 Dec 83	„
„ V Prakash . . . . . 17149 . . . . .	10 Dec 83	„
„ A Perumal . . . . . 17150 . . . . .	14 Dec 83	„
„ DK Sharma . . . . . 17151 . . . . .	30 Dec 83	„
„ P Banerjee . . . . . 17152 . . . . .	14 Dec 83	„

<i>Rank</i>	<i>Name and Number</i>	<i>Date of Confirmation</i>	<i>Date of Promotion</i>
<b>Plt Offr</b>	CR Venkatram 17153	14 Dec 83	28-5-84
"	DK Sharma 17154	10 Dec 83	"
"	RK Sharma 17155	30 Dec 83	"
"	NS Jamwal 17156	14 Dec 83	"
"	SS Bhkhowalin 17157	14 Dec 83	"
"	S R Atmakuri 17158	30 Dec 83	"
"	S Bandopadhaya 17159	10 Dec 83	"
"	A Tiwari 17160	10 Dec 83	"
"	K Raghvendra 17161	30 Dec 83	"
"	A K Pardhan 17162	10 Dec 83	"
"	S Krishnan 17163	14 Dec 83	"
"	S Sarkar 17164	14 Dec 83	"
"	J V Paul 17165	30 Dec 83	"
"	B S Yadava 17166	"	"
"	JX Israel 17167	"	"
"	T Rajeevan 17168	14 Dec 83	"
"	PV Deshpande 17169	10 Dec 83	"
"	SKPS Pillai 17170	30 Dec 83	"
"	J Chowdhury 17171	"	"
"	PS Rao 17172	10 Dec 83	"
"	PR Navalkar 17173	14 Dec 83	"
"	D Gupta 17174	10 Dec 83	"
"	A Thapliyal 17176	14 Dec 83	"
"	JE Stephen 17177	10 Dec 83	"
"	RK Bhatia 17179	30 Dec 83	"
"	R K Tripathi 17180	30 Dec 83	"
"	SK Borbora 17181	14 Dec 83	"
"	JD Pillai 17182	30 Dec 83	"
"	A S axena 17183	14 Dec 83	"

No. 579, dated 16th Feb. 85.—The President is pleased to make the following substantive promotions:—

**INDIAN AIR FORCE**

**F(P) Branch**

*Fg Offr to be Sub Flt Lt.*

HS Bhandal (15701) 15th June, 1984.

**Lgs Branch**

*Fg Offr to be Subs Flt. Lt.*

P LAL (BC-15169) 24th, December, 1984.

S. K. MITRA,  
Sqdra. Ldr.  
A. D. P. O. 3(D).